



जागरूक टाइम्स

jagruktimes.co.in

जयपुर, रविवार, 5 जनवरी, 2025 वर्ष 16 अंक 247 पृष्ठ 12 मूल्य 1.50 रु.

अस्पताल में भर्ती किया!

पेज: 10



मुख्यमंत्री की झंझरपुर यात्रा

भूजल रिचार्ज के लिए कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम अहम कड़ी

ईआरसीपी से प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी होगी लाभान्वित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जनसहयोग से राजस्थान के 40 हजार गांवों में होंगे वाटर रिचार्ज के कार्य: केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल



जागरूक टाइम्स संवाददाता
झंझरपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल बांध के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, माही बांध से बांसवाड़ा-झंझरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है।

पेयजल के लिए पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी
मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कूपर, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से खड़गढ़ा वसियों ने प्रदेश को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं नदियों को जोड़ने का काम
शर्मा ने कहा कि पिछले साल जनवरी में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या के भव्य मंदिर में शिरजमान हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्रीराम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी आम आदमी को पानी उपलब्ध करने के लिए नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं।

शर्मा शनिवार को झंझरपुर के खड़गढ़ा में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित श्रीरामकथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40 हजार गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गढ़ा एवं आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 माहों की कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प से एक किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। **श्रेष्ठ पृष्ठ 5 पर**

कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम में मिल रहा प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की पहल की है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों द्वारा गांवों में भूजल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत झंझरपुर जिले में लगभग 77 हजार कनेक्शन तथा 93 प्रतिशत स्कुलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

झंझरपुर जिले में बजट घोषणाओं के जरिये हो रहे विकास कार्य
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झंझरपुर जिले के विकास के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सागवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड खोला जाएगा तथा पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्ष में कई हैंडपंप और ट्यूबवेल के निर्माण करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोम-कमला-अंबा भीखाभाई सागवाड़ा फीडर परियोजना पर 125 करोड़ रुपये की लागत से 19 हजार 224 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झंझरपुर में 44 करोड़ रुपये की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इससे सोमपुरा मूर्तिकारों, बांसड (बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले) एवं पाँचवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले स्थानीय कलाकारों एवं अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही, जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया 'ग्रामीण भारत महोत्सव-2025' का उद्घाटन, बोले...

जिसे किसी ने नहीं पूछा, उसे हमने पूजा

'विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण' रखी गई महोत्सव की थीम



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनांगरेशन किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा ज्यादा समय गांव-देहात में गुजरता है। मैंने परेशानियों को करीब से देखा है इसीलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। पहले हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को लेकर सोच क्या थी। उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदली। हमने बताया कि सूरज की पहली और आखिरी किरण यहां पड़ती है। ये हमारे लिए प्रथम गांव हैं। इनके

लाखों गांव बुनियादी चीजों से वंचित रहे
आज की बातें देखें तो लाखों गांव बुनियादी चीजों से वंचित रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी कहां रहते हैं, गांव में। ये लोग गांव में ही गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा। गरीबी बढ़ती रही। गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही।

मैंने गांव की समस्या हल करने का सपना देखा
पीएम मोदी ने कहा कि हम में से जो लोग गांव से हैं, पले बढ़े हैं। वो जानते हैं गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में जिया है वो गांव में जीना भी जानता है। मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में बीता। मैंने बचपन से देखा है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। मैंने गांवों की परेशानियों को करीब से देखने के कारण ही गांव गरीबी की समस्या हल करने का सपना देखा।

लिये वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू चलेगा। महोत्सव की थीम को। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें 'विकसित भारत 2047 के लिए एक मोदी ने पूजा है। ग्रामीण भारत बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण' महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक रखी गई है। **श्रेष्ठ पृष्ठ 5 पर**

करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए

2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूँ। घर घर शौचालय बनाए, करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे लेकिन हमने हर गांव में आखरी व्यक्ति तक वैकसीन पहुंचाया।

हर वर्ग के लिए बने आर्थिक नीतियां

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है कि गांव में हर वर्ग के लिए आर्थिक नीतियां बनें। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट फसल बीमा योजना को एक साल और बढ़ाया है। डीएपी का दाम दुनिया में बढ़ रहा है आसमान छू रहा है। लेकिन हमने सब्सिडी बढ़ाकर उसके दाम को स्थिर रखा है।



पंजाब में तीन किसानों की मौत, 30 घायल

चंडीगढ़। पंजाब के बरनाला में किसानों को महापंचायत ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में तीन महिला किसानों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा किसान घायल हो गए। सभी किसान टोहना में महापंचायत में भाग लेने के लिए जा रहे थे। शनिवार को बरनाला के एसएचओ कुलजिंदर सिंह ने बताया कि इलाके में कोहरा था और बस बाईपास पर पकट गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

चीन: सब्जी बाजार में लगी आग, आठ लोग जिंदा जले



15 नागरिक झुलसे, अस्पताल में भर्ती

शंघाई। चीन के उत्तरी प्रांत हेबेई की बाजार में भीषण आग लगने से आठ लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। आग इतनी भयानक थी कि पूरे शहर के ऊपर देखते ही देखते धुएँ का काला गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा चीन के एक सब्जी बाजार में हुआ। चीनी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले कहा है कि यह आग शनिवार को झोंगजियाकी शहर में लगी थी। सुबह लगभग 8.40 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी। इसके करीब एक घंटे बाद ही इसे कड़ी मशकत के बाद बुझा दिया गया। अब आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यह आग लियुआंग सब्जी बाजार में लगी थी। यह बाजार को 2011 में खुला था। इस बाजार में सब्जा और फल से लेकर समुद्री भोजन और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं बेची जाती हैं।

न्यूज ब्रीफ

परमाणु वैज्ञानिक डॉ. चिदम्बरम का निधन
मुंबई। परमाणु वैज्ञानिक डॉ. आर चिदम्बरम का शनिवार सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। चिदम्बरम उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने पोखरण में 1974 और 1998 में भारत के दोनों परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे। वे अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में भी शामिल थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समुदाय में भारत के अलगवा को समाप्त कर दिया था।

अजमेर दरगाह में पेश की गई पीएम मोदी की चादर



अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। अजमेर दरगाह विवाद के बीच शनिवार को केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। दरगाह पर उन्होंने देश में अमन-चैन,

केन्द्रीय मंत्री रिजिजू ने पढ़ा प्रधानमंत्री का संदेश
भाई-बहनों की दुआ मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। अजमेर में दरगाह पर लाखों लोग आते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पर दरगाह पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर अन्य सभी तरह की जानकारियां मिलेंगी।

जयपुर में दर्दनाक हादसा

रोड़ी से भरा ट्रक पलटा, एक की मौत

जयपुर। जयपुर-दिल्ली हाईवे पर रोड़ी से भरे ट्रक के नीचे बाइक सवार के दबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। यहां मुआवजा देने की मांग पर धरने पर बैठ गए। हादसा सुबह 9.15 बजे आमेर थाना इलाके के नई माता मंदिर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रकला यू-टर्न ले रहा था, जिसे देख पेटला की दाणी पीली की तलाई निवासी मृतक बाबूलाल सैनी (33) साइड में खड़ा हो गया और इसी दौरान ये हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मृतक बाबूलाल सैनी मजदूरी का काम करता है। बाबूलाल के परिवार में मां-पत्नी और तीन बच्चे हैं।

बांदीपोरा में चार जवानों की मौत

खाई में गिरा सेना का ट्रक

कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में चार सैनिकों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। जानकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार दोपहर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि फिसलने के कारण सेना का एक ट्रक पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और सेना के अग्रिम जवान राहत कार्य में जुट गए। इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

तमिलनाडु में छह मजदूरों की मौत

चेन्नई। तमिलनाडु के विरुथुनगर जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में विस्फोट की वजह से यहां काम कर रहे छह मजदूरों की मौत हो गई है। विस्फोट के बारे में आशंका जताई जा रही है कि रसायनों को मिलाने की प्रक्रिया के दौरान यह धमाका हो गया, जिससे कम से कम एक कम्पा भीतर गिरा हो गया। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है।

सूरत एयरपोर्ट पर जवान ने की आत्महत्या

सूरत। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के जवान ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार दी। किशन सिंह नाम के जवान को फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशन सिंह ने खुद को क्यों गोली मारी इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव

भाजपा की पहली सूची में 29 प्रत्याशी

केजरीवाल को टक्कर देंगे प्रवेश वर्मा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी से रमेश बिभूड़ी को मौका मिला है। बीजेपी ने गांधीनगर सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया है। इसके अलावा मालवीय

विश्व की सबसे उम्रदराज जापानी महिला का निधन

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में टोमिको इट्टा का नाम दर्ज

टोकियो। जापान में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला (116) का निधन हो गया है। यह महिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। जापानी अधिकारियों ने बताया कि दुनिया की सबसे अधिक उम्र वाली महिला टोमिको इट्टा का निधन हो गया है। 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के अनुसार, जापान की निवासी इट्टा दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थीं। वृद्धावस्था नीतियों के प्रभारी अधिकारी योशितसुगु नगाटा ने बताया कि इट्टा का निधन 29 दिसंबर को मध्य जापान के होगो प्रांत के आशिगा स्थित एक देखभाल गृह में हुआ। इट्टा का जन्म 23 मई 1908 को हुआ था। **श्रेष्ठ पृष्ठ 5 पर**

इसरो का एक और कमाल

अंतरिक्ष में अंकुरित हुए लोबिया के बीज, जल्द निकलेंगे पत्ते

इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर एक टवीट करके इस बारे में जानकारी दी। उसने लिखा, 'स्पेस में जीवन का आरंभ। बीएसएससी का सीआरओपीएस (कैप्टिव रिसर्च गैल्लियुम फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज) प्रयोग पीएसएलवी-सी60 पीओईएम-4 पर सफलतापूर्वक हुआ। चार दिन में लोबिया के बीजों में हुआ अंकुरण, पहिलों जल्द ही निकलने की उम्मीद।' बता दें कि लोबिया के इन बीजों को स्पेस एक्स मिशन के साथ 30 दिसंबर को पीएसएलवी सी 60 रॉकेट से भेजा गया था।

लोबिया के आठ बीजों को किया अंकुरित
इस प्रयोग में लोबिया (काऊपीज) के आठ बीजों को एक नियंत्रित वातावरण में उगाया गया है, जिसमें सक्रिय धर्मल निरंतरण है। इसके तहत उन परिस्थितियों का अनुकरण करने की कोशिश की गई है, जिनसे पोषे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान गुजर सकते हैं। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष जीवविज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस प्रयोग का यह तक सफल होना अंतरिक्ष में पोषे उगाने की भारत की कबिलियत को दिखाता है।

‘केन्द्र व राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित’

अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौंसला

अलावड़ा खेल मैदान की चारदीवारी कराने व स्टेडियम के रूप में विकसित कराने की घोषणा

जागरूक टाइम्स संवाददाता

अलवर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर के राज ऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित फाइनल मैच, चिकनी स्थित एलआईटी कॉलेज में आयोजित सेमीफाइनल मैच एवं रामगढ़ में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच का टॉस कर शुरुआत की। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों से परिचय कर उनकी हौंसला अफजाई की और टीमों के बीच हुए मुकाबलों को देखा। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलो इंडिया अभियान’ से देश में खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी हैं। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों से खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे खेल में करियर बनाने के शानदार अवसर युवाओं को उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़े और उनका विकास हो सके तथा जिले में खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल तैयार हो। युवा डिजिटल दुनिया के साथ मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव का आगला चरण शीघ्र ही प्रारंभ होगा, जिसमें खो-खो, कबड्डी, बास्केटबॉल जैसे अनेक खेलों की प्रतियोगिताएं अलवर



संसदीय क्षेत्र में आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता में करीब साढ़े तीन सौ टीमों भाग ले रही हैं, जिसमें करीब 40 टीमों बेटियों की भी हैं। विजेता टीम को डेढ़ लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। रामगढ़ के अलावड़ा में पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान की चारदीवारी सांसद निधि कोष से कराने की घोषणा के साथ उन्होंने कहा कि इस मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियों को न केवल शिक्षा बल्कि आधुनिक डिजिटल युग की शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य में ‘मुख्यमंत्री अटल प्रेरक योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा वहां पर केडल गंज

व्यापारिक संचालन समिति द्वारा आयोजित भंडारे के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट’ से राजस्थान में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने कहा कि अलवर के विकास के लिए स्वच्छता के साथ विकास कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार अच्छा चलने से सब चीजें अच्छी चलती हैं। व्यापारिक संस्थानों से उन्होंने एफपीओ के विषय पर आगे बढ़ने की अपील की, ताकि स्थानीय उत्पादों के विपणन का कार्य हो सके और नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो। उन्होंने कहा कि अलवर व खैरथल में प्याज की अच्छी उपज को दृष्टिगत रखते हुए प्याज मंडी के नए अवसरों की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। अलवर सांसद खेल उत्सव मुकाबलों के दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिन्नर, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिता शुक्ला, पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ना, पूर्व विधायक बनवारी सिंहल, पूर्व विधायक जयराम जाटव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रधान दौलतराम जाटव, श्रीमती वीरमती, पूर्व महापौर

घनश्याम गुर्जर, संजय नरूका, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, इंद्र यादव, रमन गुलाटी, इंद्रजीत सिंह पाटा, देशराज खरेरा, जितेंद्र गोयल, प्रेम पटेल, राजेंद्र कसाणा, सीताराम चौधरी, अमित गोयल, हरिओम कटारा, लक्ष्मीनारायण गुप्ता, हरिशंकर खंडेलवाल, हरीश अरोड़ा, राजेंद्र सैनी, सुमन चौधरी, जितेंद्र शर्मा, सहदेव सिंह, डॉ. अशोक पाठक, निखिल चाचान, डॉ. राजेश भारद्वाज, सरिता राज, सुदेश खाम्बरा सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

खेतों की तारबंदी के दौरान बिजली

करंट से झुलसे तीन किसान

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़ी। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड क्षेत्र को ग्राम पंचायत कुदिना के गांव भूमिपुरा में शनिवार को दिन में खेत में उग रही फसल को आबारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी के दौरान बिजली करंट लगने से हादसा हुआ है। खेतों के पास से गुजर रही बिजली लाइन के सम्पर्क में आने से तीन किसान झुलसे हैं। झुलसे हुए किसानों को ग्रामीणों और परिजनों द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से एक किसान को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के डांग क्षेत्र में कुदिना ग्राम पंचायत के भूमिपुरा गांव में बिजली करंट से यह घटना हुई है। घटना में गांव के रामवीर पुत्र उत्तम गुर्जर, राजवीर पुत्र माखन गुर्जर और शंकरलाल पुत्र रामसिंह गुर्जर खेत पर तारबंदी के दौरान बिजली करंट से झुलसे हैं। तीनों किसान खेतों पर उग रही सरसों की फसल को आबारा जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी कर रहे थे। इस दौरान जब के तारों को खेबे लगाकर बांध रहे थे तो अचानक से पास से गुजर रही ग्यारह केवी लाइन के संपर्क में आ गए।

न्यूज ब्रीफ

स्व. उमल सोनी की तृतीय पुण्यतिथि पर अस्पताल में 4 बड़े रूम हिल्टर व 30 कंबल किए भेंट



जागरूक टाइम्स संवाददाता

चौमूं। स्वर्गीय रूमल सोनी निवासी चौमूं की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र चंद्र प्रकाश पवन कुमार सोनी विनायक ज्वेलर्स बापू बाजार चौमूं की ओर से चौमूं उप जिला अस्पताल में 4 बड़े रूम हिल्टर व 30 कंबल भेंट किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, डॉक्टर सुरेश जांगिड़, अजीत सिंह शेखावत, मान प्रकाश सैनी, बुद्धि करण मीना, मोहित पंजाबी, रवि कुमार, आदि गुर्जर, सहोदर चौधरी, सुनील सैनी, आशीष शर्मा, दीपक शर्मा आदि मौजूद थे।

वार्षिक अधिवेशन में 75 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशनर का सम्मान



जागरूक टाइम्स संवाददाता

चूरू। रतननगर के पेंशनर उप शाखा के तत्वावधान में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन अध्यक्ष मुरारीलाल महर्षि व टीओ रामस्वरूप के सानिध्य में किया गया। जिसमें 75 वर्ष पूर्ण करने वाले अब्दुल मजीद, फतेह मोहम्मद व लीलाधर शर्मा का अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में जनवरी माह में जन्म लेने वाले पेंशनर नारायण प्रसाद महर्षि, दुर्गादत्त शर्मा, साविर मोहम्मद, पूर्णमल खारड़िया, विनोद मिश्रा, नथमल शर्मा, प्रताप सिंह राठी, बनवारीलाल शर्मा, विद्याधर मीणा व गिरधारी लाल सैनी आदि का स्वागत किया। अधिवेशन में बीओबी मैनेजर मानवेन्द्र सिंह, खेमचंद सोनी, टीओ रामस्वरूप, इसहाक मोहम्मद, डॉ. वैद्यप्रकाश शर्मा, छानलाल चौधरी, सोहन लाल फगेड़िया व पूर्णमल आदि ने बैंकिंग प्रणाली, पर्यावरण, साम्प्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य, भाईचारा व आरजीएएस पर सारगर्भित प्रस्तुति दी गई। चूरू जिला शाखा के रामस्वरूप शर्मा, बजरंग लाल, हरिसिंह, घनश्याम, पूर्णमल सोनी, सहायक बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

प्रोफेसर हिमांशु सेंगर महला को आज मिलेगा याज्ञसेनी सम्मान

जागरूक टाइम्स संवाददाता

चूरू। युक्ति सामाजिक शोध संस्थान के 11वें स्थापना दिवस का समारोह नगर श्री सभागार में होगा सचिव राजकौर राहड़ ने बताया की दोपहर 2.30 बजे होने वाले कार्यक्रम में प्रोफेसर हिमांशु सेंगर महला को याज्ञसेनी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा संरक्षक डॉ. सरोज हातिर ने बताया कि विधि महाविद्यालय चूरू के प्राचार्य डॉ. श्रवण कुमार सैनी की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. खेमचंद सोनी होंगे। कार्यक्रम में शिक्षाविद् साहित्यकार व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

शिवचरण सैनी ने फुले संस्था अध्यक्ष पद से दिया त्याग पत्र

जागरूक टाइम्स संवाददाता

फुलेरा। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था अध्यक्ष पद से शिवचरण सैनी ने इस्तीफा दिया। जानकारी देते हुए शिवचरण सैनी ने बताया कि माली सैनी समाज संस्था के अध्यक्ष तेजकरण सैनी ने पत्र क्रमांक 02/2024 के अनुसार 26 मई 2024 को उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। लेकिन अभी भी संस्था के पद पर स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष पद पर दो अध्यक्ष संस्था का कार्य कर रहे हैं तथा अध्यक्ष पद को लेकर विवादादि स्थिति होने के कारण यह अध्यक्ष पद उन्हें स्वीकार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि माली समाज अध्यक्ष द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र का भी कोई अस्तित्व नहीं है। शिवचरण सैनी ने अपना इस्तीफा माली सैनी समाज संस्था के अध्यक्ष तेजकरण सैनी को सौंप दिया है।

प्रजापति नवयुवक मंडल की बैठक आयोजित समाज के विकास के लिए नवयुवकों का संगठित होना आवश्यक : करण प्रजापति

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़ी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर में स्थानीय प्रजापति नवयुवक मंडल की बैठक निजी मैरिज होम में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता युवा नेता करण प्रजापति ने की। बैठक में युवाओं ने समाज के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देने और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया। इस मौके पर समाज के अंकुश प्रजापति ने समाज के युवाओं में जागृति पैदा कर संगठित करने का आह्वान किया। रॉकी प्रजापति ने युवाओं को समाज विकास के लिए तन, मन, धन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। योगेश प्रजापति हलवाई ने समाज के युवाओं को संगठित करने के लिए प्रत्येक घर पर जाकर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे करण प्रजापति ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज की उन्नति के लिए हम सभी को एकता के साथ कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। शैक्षिक विकास हमारे विकास की धुरी है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, समाज में बिखराव को दूर करना एवं आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना का प्रसार करना अति आवश्यक है। करण प्रजापति ने कहा कि हमें संपूर्ण जिले में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर प्रत्येक युवा समाज बंधु से संपर्क कर उन्हें समाज विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। बैठक में प्रजापति समाज के ऋषि, करन, रीतेश, अंकेश, दीपक, शिवम, विनोद, अमन, धर्मेन्द्र, देवेश, दशरथ, हरिओम, हिमांशु, जीतू, कृष्णा, मयंक, मिथुन, मोनू, पवन, राहुल, राम, रामू, रिकू, रोहित, सोनू, विवेक, सुमित आदि युवा समाज बंधुओं के साथ-साथ बाड़ी नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी सतोष कुमार नगर अध्यक्ष, रामनिवास उपाध्यक्ष, मनोज कुमार कोषाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन ऋषि प्रजापति ने किया। सर्वसम्मति से करण प्रजापति को नवयुवक मंडल का अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष अंकेश प्रजापति को चुना गया।

कोहरे में बेवजह यात्रा से करें परहेज



सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगाए रिफ्लेक्टर

धौलपुर। जिला कलेक्टर की दिशा-निर्देशन में मनाया जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शनिवार को गुलाब बाग चौहरे पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये गए। इस अवसर पर वाहन चालकों के मध्य समझाइए करते हुए परिवहन निरीक्षक सूरजभान ने कहा कि कोहरे का समय चल रहा है और कोहरे के समय दुर्घटनाओं की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है ऐसे में यदि बहुत जरूरी हो तभी

यात्रा करनी चाहिए बेवजह यात्रा से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनिद्रा की अवस्था में वाहन नहीं चलने चाहिए और वहां के पीछे रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर लगा होने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है इसलिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए खास करके ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगा होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर जिला यातायात के कर्मी व परिवहन विभाग से देवेन्द्र शर्मा भूदेव त्यागी उपस्थित रहे।

पदस्थापित अधिकारियों का आवासीय प्रशिक्षण सम्पन्न

जागरूक टाइम्स संवाददाता

चूरू। जिला मुख्यालय स्थित सोती भवन में समग्र शिक्षा अभियान के चूरू संभाग में कार्यरत एवं परियोजना मद में पदस्थापित अधिकारियों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। समापन समारोह अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सतोष कुमार महर्षि के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए महर्षि ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सीखी हुई अद्यतन जानकारी से विभागीय गतिविधियों को गति मिलेगी तथा जिलों की रैंकिंग में निश्चित रूप से सुधार होगा। राज्य संदर्भ व्यक्ति सरोज बेनीवाल, मुकेश निठारवाल, झोंडुराम एवं रजनीश ने संभागीयों में



प्रशिक्षण प्रदान किया। सहायक परियोजना समन्वयक राजबाला खोचड़, हरिप्रसाद शर्मा, महेंद्र कृष्णिया, रामचंद्र एवं जितेंद्र कुमार माली ने संबोधित किया। बेधड़क बड़सरा, सुरेंद्र महला, मनोज सोलंकी, इकबाल गोरी, अविनाश सहारण, धर्मेन्द्र सोलंकी, धर्मेन्द्र सिंह, विनय कुमार सोनी आदि अधिकारीगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रणवीर धीधवाल ने किया।

वैष्णो माता के दर्शनों के लिए दल रवाना



चौमूं। कबीला फाउंडेशन के तत्वावधान में 25 जनं का दल वैष्णो माता के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने ध्वजा दिखाकर वैष्णो माता के लिए दल को रवाना किया। कबीला फाउंडेशन एवं कबीला रेस्टोरेंट के निदेशक अशोक रञ्जीया की ओर से सभी 25 जनं को निशुल्क वैष्णो माता के दर्शनों के लिए यात्रा कारवाई जा रही है। इस मौके पर कबीला फाउंडेशन और कबीला रेस्टोरेंट के निदेशक अशोक रञ्जीया ने कहा कि यह तीन दिवसीय

वैष्णो माता दर्शन के लिए यात्रा सुगम व सुलभ हो। सभी के लिए खाने व टहरने के निशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही यात्रा के रास्तों में आने वाले धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण किया जाएगा। वैष्णो माता दल स्वानगी के दौरान वाई के वरिष्ठ नागरिक बालजी, देवीलाल जलुथरिया, मुस्लीधर जलुथरिया, भंवर गुसाईवाल, गोपाल जलुथरिया, मोहन जलुथरिया, बद्री, रामू बाबाजी, गुलजी जाजोरिया, युवा साथी रमेश बायला, रवि कुमार, कालू व वाईवासी उपस्थित रहे।

बैंक की योजनाओं के बारे में दी जानकारी



चूरू। पीथीसर गांव में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से एवं बीआरकेजीबी शाखा की ओर से आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता समन्वयक गुमानसिंह शेखावत ने भारत सरकार की ओर से संचालित पी एम ए स बी वा ई, पीएमजेजेबीबीवाई एवं अटल पेंशन योजना आदि बारे में विस्तार से जानकारी दी। शेखावत ने बताया कि इस डिजिटल बैंकिंग युग में सभी बैंकिंग लेनदेन सावधानी पूर्वक करें। जलुथरिया, बद्री, रामू बाबाजी, गुलजी लिक पर क्लिक नहीं करें। अधिकतर वेबसाइट के बीना रिपोर्ट डाउनलोड न

करे। शेखावत ने बताया कि आजकल साइबर क्राइम द्वारा नये नये तरीके ईजाद कर लोगो को वित्तीय हानि पहुंचाई जा रही है। पूर्व प्राचार्य गुमानोराम ने स्टाफ की कमी के कारण बैंकिंग सेवाएं कमी का समाधान निकालने की बात कही।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चौथे दिन की गई समझाइश एवं प्रवर्तन कार्रवाई

जागरूक टाइम्स संवाददाता

अलवर। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि परिवहन एवं सड़क विभाग द्वारा 'अलवर परवाह' की थीम पर 31 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के चौथे दिन परिवहन विभाग के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी व प्रवर्तन संबंधित कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि विभाग के उडन दस्ता प्रभारी शैलेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा प्राइवेट बस स्टेण्ड बहरोड पर केम्प आयोजित कर 85 से अधिक हल्के एवं भारी वाहन चालकों एवं परिचालकों को सड़क एवं यातायात नियमों संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक खैरथल-तिजारा मनीष चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक राजेन्द्र निर्वाण, थानाधिकारी किशनगढबास जितेंद्र शेखावत, परिवहन निरीक्षण दुलारी एवं अमित भारद्वाज द्वारा पापडो टोल प्लाजा तिजारा रोड पर लगभग 200 आमद टोल नागरिकों को सड़क सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा



एवं गुड सेमेरिटन नियमों की जानकारी दी तथा 200 पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही ट्रेफिक पुलिस एवं परिवहन उडन दस्तों द्वारा विभिन्न श्रेणी के 22 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई तथा प्रवर्तन कार्यवाही के अंतर्गत 8 बिना सीटबेल्ट, 90 बिना हेलमेट वाहन संचालन, 1 मोबाइल पर बात करने पर, 20 तीन सवारी से अधिक होने, 15 बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित वाहन,

68 निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाने, 12 नो पार्किंग, 1 बिना नम्बर प्लेट संचालित एवं 1 प्रोटेक्शन डिवाइस से संबंधित चालान किए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार यादव, परिवहन निरीक्षक प्रेम कुमार अग्रवाल राधक राजगर्ग थानागाजी से कटीघाटी तक ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर संयुक्त निरीक्षण किया गया।

विशाल नेत्र शिविर के आयोजन को लेकर प्रचार रथ किया रवाना



जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़ी। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड पर शहर में अपना घर सेवा समिति बाड़ी की ओर से विशाल मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 5 जनवरी 2025 को शहर की स्थानीय सत्यनारायण धर्मशाला में आयोजित किया जायेगा। शिविर संयोजक विष्णु महरे ने बताया कि नेत्र शिविर में प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जतिन गर्ग द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मरीज को दवाई, ऑपरेशन, चश्मा, लेंस, भोजन आवास सब नि:शुल्क रहेगा। रविवार को आयोजित होने वाले विशाल नेत्र शिविर के प्रचार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया है। जिसको अपना घर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने रवाना किया। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु महरे, गोपाल दास गर्ग, सचिव भुवनेश्वर शर्मा, कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग, बबलू तेजाजी, प्रमोद सिंघल, सहसंयोजक रामनिवास अग्रवाणी आदि मौजूद रहे।

राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं से किया संवाद, स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने का किया आह्वान

सार्वजनिक सरोकारों के लिए ग्रामीण जनों ने किया अभिनंदन



जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को छात्र-छात्राओं से किया संवाद, स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने का किया आह्वान। निधोना गांव में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हुए युवावतारपूर्ण शिक्षा के प्रसार और विद्यालयी छात्र-छात्राओं को महापुरुषों के जीवन से सिख लेने का आह्वान किया।

बागडे ने शनिवार को स्थानीय गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने वहां पर

आधारभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय जनों को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य सुविधाओं से लाभांशित किए जाने का आह्वान किया। ग्रामीणों को शिक्षा और व्यायाम अपनाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल बागडे का विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने भावभरा अभिनन्दन करते हुए उनके सार्वजनिक सरोकारों और आम जन के लिए समर्पित जीवन की सराहना की।

सुविधाओं के लिए उन्होंने एंबुलेंस का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत को एंबुलेंस की चाबियां सौंपते हुए उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल बागडे का विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने भावभरा अभिनन्दन करते हुए उनके सार्वजनिक सरोकारों और आम जन के लिए समर्पित जीवन की सराहना की।



राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करें सुनिश्चित- शासन सचिव पशुपालन

जयपुर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए विभाग की ओर से पतंगबाजी को लेकर आमजन हित तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है।

जिला कलक्टरों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को जान का खतरा होने की अत्यधिक संभावना रहती है। पतंग उड़ाने के दौरान अत्यधिक धारदार, नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझों एवं उन पर लोहे अथवा कांच के पाउडर की कोटिंग से आमजन एवं पशु पक्षियों को हानि पहुंचाने और कई बार जनहानि होने की भी संभावना होती है।

साथ ही यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बने होने के कारण विद्युत सुचालक भी हो जाता है। जिससे विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है और विद्युत सप्लाई में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी सामग्री से निर्मित मांझों पर तत्काल प्रतिबंधात्मक रोक लगाने की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

आज सजेगा संगीतमय अग्रसेन भजनामृत छप्पन भोग

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। नववर्ष के अवसर पर श्री अग्रसेन महासभा ट्रस्ट, जयपुर के तत्वावधान में सांगानेरी गेट स्थित अग्रसेन पीजी कॉलेज श्री अग्रसेन जी के मन्दिर में रविवार को सुबह 10.30 बजे से विशाल संगीतमय 56 भोग का आयोजन किया जाएगा।

अध्यक्ष पवन लश्करी व प्रमुख मनोरथी अरविन्द अग्रवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में भगवान श्री अग्रसेन जी के मन्दिर में इस प्रकार का यह पहला आयोजन है। इस अवसर पर भगवान श्री अग्रसेन जी के साथ बाबा श्याम का भी दरबार सजाया जाएगा इस मौके पर विद्वान पण्डितों द्वारा बाबा श्याम एवं अग्रसेन जी की पूजा-अर्चना कराई जाएगी। आयोजन के सभी मनोरथी परिवार के साथ पूजा अर्चना कर सत्संग का भक्तों भजनों का आनन्द कराएंगे।

उपाध्यक्ष रमेश नारनोली 'राजवेश' वाले ने बताया कि यह आयोजन गिरिजा शंकर तुरकासवाला के नेतृत्व में श्री अरविन्द अग्रवाल, गिरधारी लाल कागदी अमर चन्द काला एवं दीपिका जैन तुरकासवाला की कई दिनों की समर्पित सेवा से सम्पादित हो रहा है।

शिक्षा मंत्री का जसोल धाम दौरा

जसोल धाम श्रद्धा का केंद्र एवं दर्शनीय स्थल : मदन दिलावर

मन्दिर के विकास कार्यों की प्रशंसा, शिक्षा को दिया बढ़ावा

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को बालोतरा जिले के राणी भटियाणी मन्दिर संस्थान, जसोल (जसोल धाम) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राणीसा भटियाणीसा, बायोसा, भैरूजी, खेतलाजी, सवाईसिंह जी एवं लाल बसासा मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर संस्थान समिति सदस्य कुं. हरिश्चंद्र सिंह जसोल ने दिलावर को संपूर्ण मंदिर परिसर में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की सराहना की।

शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर का विशेष योगदान: उन्होंने मंदिर प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदिर में शिक्षा, खेल, चिकित्सा सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं। दिलावर ने मंदिर संस्थान द्वारा एक विद्यालय को गोद लेने और शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने

कहा कि यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है तथा शिक्षा के

अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। यह स्थान श्रद्धालुओं

कार्य सभी के लिए प्रेरणादायक है। राणी भटियाणी मन्दिर



प्रति एक मजबूत संदेश देता है। मंत्री ने मंदिर परिसर को श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय स्थल बताते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में इतना भव्य और सुंदर धार्मिक स्थल बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा, राणीसा भटियाणीसा (मां जसोल) के दर्शन कर एक

के लिए प्रेरणा है, साथ ही यहां से हर कोई सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाता है। दिलावर ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यहां से प्रेरणा लेकर समाज के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दें। उन्होंने कहा कि मंदिर का यह वातावरण और विकास

संस्थान, जसोल ने शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जो संकल्प लिया है, वह पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। मंत्री ने संस्थान की इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह भविष्य में समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगा।

श्री दादीजी का द्वादशम वार्षिकोत्सव आज, पोस्टर का विमोचन

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। श्री दादीजी मंगल पाठ समिति के बैनर तले रविवार दोपहर 1 बजे से सीकर रोड स्थित रामेश्वरम मैरिज गार्डन में दादीजी को द्वादशम वार्षिकोत्सव आयोजित होगा। इस उत्सव का शुभारंभ प्रथम पूज्य श्री मोती डूंगरी गणेश जी को निमन्त्रण पत्र देकर किया गया, साथ ही उत्सव के पोस्टर का विमोचन जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष किशन चैखानी, तरुण रावत, पवन मित्तल, अरुण गोयल, ऋषभ, रवि, आरती मित्तल, पलक गोयल उपस्थित रहे। समिति की सदस्य ज्योति शर्मा ने बताया कि उत्सव रविवार को रामेश्वरम मैरिज गार्डन में आयोजित होगा। इस अवसर पर श्री दादीजी का मंगल पाठ महिलाएं 501 आसनो पर करेंगी। इस वर्ष वार्षिक उत्सव में दादी रानी के मंगलपाठ का व्याख्यान स्वाति अग्रवाल

कोलकाता अपनी मधुर वाणी से करेगी, साथ ही दादीजी का चूड़ा उत्सव, मेहंदी उत्सव, चुनरी उत्सव मुख्य आकर्षण होंगे।

आज निकलेगी वर्तुदशम वार्षिकोत्सव प्रभात फेरी

जयपुर। श्री राधे रानी प्रभात फेरी मंडल, नेहरू नगर, पानी पेच, जयपुर के तत्वावधान में चतुर्दशम वार्षिकोत्सव प्रभात फेरी रविवार को सुबह 7.00 बजे लक्ष्मीनारायण मन्दिर से निकाली जाएगी। प्रभात फेरी में हाथी-घोड़े, बाजे, आतिशबाजी करते हुये प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस दौरान प्रभातफेरी में संतों के साथ शामिल झार्कियां भक्तों के बीच आकर्षण का केन्द्र रहेगी। मण्डल के आयोजक रामस्वरूप नाटणी ने बताया कि यह प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से होती हुई वापिस मंदिर पहुंचेगी। प्रभात फेरी के मार्ग में श्रद्धालु जगह-जगह आरती एवं स्वागत करेंगे।

विद्याधर नगर में भागवत कथा का चौथा दिवस

धूमधाम से मनाया नंदोत्सव, भक्तों ने लूटी उछाल

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। गिरांज संघ परिवार विश्वकर्मा जयपुर के 26 वें वार्षिकोत्सव पर तत्क विद्याधर नगर सेक्टर-7 स्थित अग्रसेन हॉस्पिटल के पीछे स्थित प्रांगण में चल रही 108 विशाल श्रीमद भागवत ज्ञानयत्र के चौथे दिन शनिवार को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव के रूप में मनाया गया। इस भक्तों को मुख्य यजमान मदन मोहन सोमानी व वरुण सोमानी, अध्यक्ष राम रतन अग्रवाल व मंत्री गिरीष अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने नंद के आनंद भयो... यथोदा जायो ललनाकुंजैसे बधाई गीतों के बीच खिलौने, मेवे व फल की उछाल लुटाई।

इस अवसर पर व्यासपीठ से परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मुदुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि भक्त के भाव को, अपने इष्ट के प्रति भक्त की आस्था को केवल प्रभु ही समझ सकते हैं, इसीलिए जीव को अपना दुख संसार के सामने नहीं

पक्षी बचाव और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। कानोडिया पी. जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के भूगोल विभाग द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 2025 को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इको रेस्क्यूर्स फाउंडेशन के सहयोग से 'पक्षी बचाव और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यशाला' का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की सामाजिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं और संकाय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में प्रशिक्षित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में पक्षी बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण एवं घायल पक्षियों को प्राथमिक उपचार देने का अभ्यास करवाया गया। मुख्य अतिथि मंजू शोखावत, पर्यावरणविद् और जयपुर एनिलम वेलफेयर एसोसिएशन (जावा) की संस्थापक रही। उन्होंने अपने प्रेरक भाषण में पक्षी बचाव अभियानों में अपने अनुभव साझा किए तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र था। इस सत्र में इको रेस्क्यूर्स फाउंडेशन के विशेषज्ञ, डॉ. स्वरूपा नंद सरकार, विभागाध्यक्ष साइकियाट्री विभाग, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और इको रेस्क्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष, डॉ. गौतम चौधरी, होम्योपैथिक डॉक्टर और वन्यजीव संरक्षणवादी, संजीव सांखला, पूर्व राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चैंपियन ने प्रतिभागियों को घायल पक्षियों को बचाने की विभिन्न तकनीकों सिखाई गईं और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय उप-प्राचार्य डॉ. सुनीता माथुर, डॉ. रंजुला जैन, डॉ. मनीषा माथुर एवं डॉ. रंजना अग्रवाल के साथ लक्ष्मी सक्सेना (मदर अर्थ प्रोजेक्ट) की अध्यक्ष एवं महाविद्यालय की प्राध्यापिकाएँ उपस्थित रही। कार्यक्रम विभागाध्यक्ष डॉ. नीलम बागेधरी के निर्देशन में आयोजित हुआ साथ ही आयोजन में विभाग की प्राध्यापिका शोनु, डॉ. रेणु शकवत और आरती तंवर की भूमिका रही।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 2017 में संशोधन अधिसूचना जारी

नए नियमों से खनिज सेक्टर को मिलेगा बूस्टअप

खनिज सेक्टर होगा निवेशोन्मुखी, प्रक्रिया होगी सरलीकृत, अग्रगामी, रोजगार व राजस्व के खुलेंगे नए अवसर

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसेण्ड नीति 2024 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश में नई खनिज नीति लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की घोषणा के क्रम में 4 दिसंबर 24 में नई खनिज और एम-सेण्ड नीति जारी करने के साथ ही अब राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमों में भी नई नीतियों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किये गए हैं। राज्य की नई खनिज नीति व अब नियमों में प्रावधानों से खनिजों के खोज कार्य में तेजी लाने, खनिज रियायतों का समय पर आवंटन, खनन क्षेत्रों के विकास, खनिज बजरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, खनन नियमों व परमिट व्यवस्था सहित प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने, अवैध खनन, निर्गमन व भण्डारण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति अपनाने, खनन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग सहित प्रदेश में खनिज क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ाने की राह प्रशस्त हो गई है। प्रमुख सचिव माईस टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 2017 में आवश्यक रीटाइफिकेशन जारी कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार समस्त रॉयल्टी पेड खनिजों के परिवहन में लागू ई-टी.पी.

नए नियमों से खनिज सेक्टर को मिलेगा बूस्टअप

की व्यवस्था को ई-वे बिल के परिप्रेक्ष्य में खनिज बजरी, मेसेनरी स्टोन की गिट्टी/ग्रिट/क्रशर डस्ट/एम-सेण्ड तक सीमित किया गया है। स्टीप ऑफ लैण्ड के वर्तमान प्रावधान से सम्भावित राजस्व हानि देखते हुए इसे समाप्त कर गैप क्षेत्र के आवंटन में रिजर्व प्रस्टुट डेड रेन्ट/लाईसेंस फीस को 10 गुणा से बढ़ाकर 25 गुणा किया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने हेतु खनन पट्टा आवंटित करने की गाइडलाइन्स जारी की जाएगी। एम-सेण्ड नीति के प्रावधान अनुसार प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 2 प्लॉट के स्थान पर 5 प्लॉट का आरक्षण कर नीलामी तथा नये ब्लॉक्स में खनन गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करने हेतु खनन की आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने के पश्चात् नीलामी की जाएगी। खातेदारी भूमि से, छोटे-छोटे पोकेट्स में घिरी हुई सरकारी भूमि को सम्बन्धित खातेदार अथवा उसके सहमति धारक को आवंटित किया जा सकेगा। खनिज बजरी की खनन पट्टों की सीमित पट्टावधि के दृष्टिगत, क्षेत्र स्वीकृति से पूर्व पर्यावरण सहमति प्राप्त करने तथा अप्रधान खनिजों की नई खनन रियायतों में खनन समय पर प्रारम्भ करने हेतु मंशा पत्र की वैधता की अधिकतम समय सीमा 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। खातेदारी भूमि में खनिज रियायतों की स्वीकृति के दौरान प्रीमियम राशि के भुगतान की समयावधि नीलामी से स्वीकृत खनिज रियायतों की समयावधि के अनुरूप की गई है। नए प्रावधानों के अनुसार जनजाति क्षेत्र

नए नियमों से खनिज सेक्टर को मिलेगा बूस्टअप

में अप्रधान खनिज की रियायतों की नीलामी में स्थानीय निवासियों की भागीदारी के लिए बिड सिक्योरिटी 10 लाख से घटाकर 5 लाख तथा खनिज रियायतों के प्लॉट्स की नीलामी में फर्जी बिड रोकने हेतु 30 करोड़ से अधिक की बोली पर बिड सिक्योरिटी की राशि, प्रस्तुत बिड राशि की 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है। नई व पुरानी खनिज रियायतों में परफोरमैन्स सिक्योरिटी की राशि में विषमता को समाप्त कर सभी में डेड रेन्ट/लाईसेंस फीस का 50 प्रतिशत करने के प्रावधान किया है। सरेण्डर आवेदन पत्र के निस्तारण की समय सीमा निर्धारण, सरेण्डर पर खानों के डेड रेन्ट की गणना आनुपातिक रूप से करने के प्रावधान किया गया है। खनन पट्टा प्रारम्भ होने अथवा प्रारम्भ होने के पश्चात् लगातार दो वर्ष की अवधि तक खनिज का उत्पादन/निर्गमन नहीं करने पर खानों को लैप्स व रिवाइव करने, खनन पट्टों के हस्तान्तरण की संविदा निष्पादन व पंजीयन में विलम्ब पर लेट फीस निर्धारित करते हुए अनुमति देने, सडक, आबादी, तालाब व अन्य स्थानों से 45 मीटर की दूरी में खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं करने तथा खानों को उच्चाधिकारी के अनुमोदन पश्चात् निरस्त करने के अधिकार को प्रदान किया गया है। माईन प्लान में जीरो वेस्ट माईनिंग प्रैक्टिस पर जोर, नीलामी में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु रॉयल्टी वसूली टेकेदारों का विभाग के साथ पंजीयन की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया गया है। निजी क्षेत्र, विभिन्न निर्माण कार्यों के

कोचिंग-स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोकने के लिए सरकार विधेयक लाएगी

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा में आत्महत्या रोकने के संबंध में विधेयक लेकर आएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दी गई। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 33 जिलों में संचालित कोचिंग सेंटरों की लिस्ट भी पेश की गई। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न कानून बनने तक कोचिंग सेंटरों के पंजीयन से संबंधित केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू करा दिया जाए? इसे लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स में बढ़ती खुदकुशी की घटनाओं के बीच हाईकोर्ट ने करीब 9 साल पहले स्वप्रेत प्रसंजान लेकर याचिका दर्ज की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा था कि वह कोचिंग स्टूडेंट्स में आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि हम इस संबंध में विधेयक ला रहे हैं। इस पर न्यायमित्र वरिष्ठ वकील सुधीर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि कानून बनने में समय लगने वाला है, तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना कराई जाए और उनके अंतर्गत तय मानकों के अनुसार कोचिंग सेंटरों का पंजीयन किया जाए।

जागरूक टाइम्स

संपर्क करें

विज्ञापन देने के लिए

+91-9819170710
+91-9587022840
+91-8696111716

प्रति के लिए

9057203837

कार्यालय :- 0141-2743001

Email :- jtjaipur@gmail.com

वैदिक मंत्रों से होता है आध्यात्मिक चेतना का विकास : अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी

नवनिर्मित गुरुकुल विद्यालय का किया निरीक्षण

जागरूक टाइम्स संवाददाता

चारभुजा। के कसार में बनने जा रहे सनातन वैदिक संस्थान के तत्वावधान में बनने जा रहा वेद विद्यालय गुरुकुल आश्रम स्थल पर पंडितों के सानिध्य में शनिवार को हवन यज्ञ के साथ मंत्रोच्चा हुआ। जहां ज्ञानशाला में सूरजकुंड के महंत अवधेश चैतन्य महाराज ने यज्ञ हवन का शुभारंभ करवा कर यज्ञ शाला की परिक्रमा की। इसके बाद सनातन वैदिक संस्थान के अधीनस्थ पंडितों की कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें बौद्धिक प्रवचन हुआ। अवधेश चैतन्य महाराज ने कहा कि वेद वाणी व मंत्रोच्चार से होता है आध्यात्मिक चेतना का संचार। संस्था विगत कई वर्षों से वेद भवन बनाने के लिए तत्पर थी मगर कार्य में कई बाधा आ रही थी। अब समय आ गया है। संघर्ष व श्रम से ही निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि कसार की वादियां, प्राकृतिक सौंदर्यता, निर्मल वातावरण गुरुकुल आश्रम के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने संस्थान के अध्यक्ष पंडित उमेश द्विवेदी से कहा कि इस बार मई व जून में लगने वाला शिविर इस निर्माण धीन भूमि पर संपन्न हो। सनातन वैदिक संस्थान के अध्यक्ष पंडित उमेश द्विवेदी ने बताया कि 24 वर्षों का



प्रयास सफल होने का श्रेय बटुकों के अभिभावक, समाजसेवी व भामाशाहों को जाता है जिन्होंने वेद पाठशाला के लिए संस्थान को अंशदान देकर वेद पाठशाला के निर्माण में लगे हुए हैं। वही दो दिन पंडितों के सम्मेलन में भी वेद पाठशाला की योजनाएं व रूपरेखा तय की जाएगी। गुरुकुल वेद विद्यालय की भूमि पर वर्तमान में 16 कमरे, हॉल, भोजशाला व यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। जहां शनिवार को भी दूर दराज से संतो के दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। वेद साधु संतो के लिए पौराणिक काल घासफूस की झोपड़ियां बनाई गई हैं। निर्माणधीन गुरुकुल भूमि का निरीक्षण किया गया जिनमें

फतहचंद सामसुखा, हरकचंद मंत्री, मोहन प्रजापत, संजय पालीवाल, हरिभागवान बंग, सत्यनारायण तोषनीवाल, अशोक बाल्दी, नरेश तेली, सत्यनारायण बर्हेडिया, हेमराज तेली, बाबूलाल कोठारी, शिवराज सिंह सोलंकी, 24 श्रेणी पालीवाल समाज के अध्यक्ष बदीलाल पालीवाल, कोषाध्यक्ष बसंत कुमार पालीवाल, डॉक्टर लोकाश शर्मा, आदि सम्मिलित थे। इस दौरान सरपंच विकास दवे, संस्थान के महामंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा, देव प्रकाश पालीवाल, योगेश त्रिवेदी, गोविंद पालीवाल, प्रशांत व्यास, भरत पानेरी, शशीकांत दीक्षित, मनोज शर्मा, निलेश पालीवाल, मांगीलाल शर्मा दुर्गा शंकर द्विवेदी, मयंक शर्मा, गौतम दवे, वरुण दवे सहित कई वैदिक विद्वान उपस्थित थे।

डीडवाना-कुचामन जिले में विकास की नई पहल

जागरूक टाइम्स संवाददाता

कुचामन सिटी। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय राजिगं राजस्थान समिति में डीडवाना-कुचामन जिले के निवेशकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार, जिले में 6 नए स्थानों पर रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित की गई है।

चिन्हित हुए स्थान: **कुचामन:** गांव मांगलोदी, खसरा नंबर 49, रकबा 16.30 हेक्टेयर **कुचामन:** गांव मांगलोदी, खसरा नंबर 1155, 1161, 1164, रकबा 22.84 हेक्टेयर। **नावा:** गांव खाखड़की, खसरा नंबर 766/438, रकबा 167.08 हेक्टेयर। **डीडवाना:** गांव बालिया, खसरा नंबर 288, 286, रकबा 71.05 हेक्टेयर। **परबतसर:** गांव पालड़ी कड़वा, खसरा नंबर 214, 440, रकबा 13.19 हेक्टेयर। **परबतसर:** गांव भकरी मौलास, खसरा नंबर 1085/1081, रकबा 39.27 हेक्टेयर रीको मुख्यालय ने स्थल चयन समिति का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, उपखंड अधिकारी, महाप्रबंधक (जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र), और वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (रीको) सदस्य होंगे। यह समिति 15 और 16 जनवरी 2025 को इन स्थलों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी। रीको मुख्यालय ने स्थल चयन समिति का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, उपखंड अधिकारी, महाप्रबंधक (जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र), और वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (रीको) सदस्य होंगे। यह समिति 15 और 16 जनवरी 2025 को इन स्थलों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से अनुमानित 6000 करोड़ रुपये का निवेश और 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। जिले में वर्तमान में केवल 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जबकि जिला कलेक्टर के कार्यकाल में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है, जो जिले की औद्योगिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यूज ब्रीफ



जागरूक टाइम्स संवाददाता
राजसमंद। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा ने फिटनेस सेंटर में निरीक्षण किया। डॉ. शर्मा ने फिटनेस के लिए आए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने फिटनेस सेंटर के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों में यदि रिफ्लेक्टर टेप न हो तो उन्हें आवश्यक रूप से टेप लगाकर फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए। डॉ. शर्मा ने फिटनेस सेंटर के प्रभारी राजेश कुमार, युवराजसिंह चुण्डावर, प्रेम कुमार सैनी और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने और हेलमेट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। ताकि सड़क पर हादसों से बचाव किया जा सके और सुरक्षित यात्रा की जा सके।
गौमाता सनातन वैदिक धर्म का मूल तत्व : अवधेश चैतन्य

डॉक्टर सना देवड़ा की नियमित चिकित्सा सेवाओं की औपचारिक शुरुआत के लिए स्वागत

जागरूक टाइम्स संवाददाता

कुचामन सिटी। शहर की चिकित्सा सेवाओं में शुक्रवार को उस वक एक और आयाम जुड़ गया जब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सना देवड़ा की नियमित चिकित्सा सेवाओं की शहर में औपचारिक शुरुआत हुई। गौरतलब है कि डॉक्टर सना देवड़ा कुचामन शहर के राजकीय जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इशाक देवड़ा की पुत्र वधु हैं। डॉक्टर सना देवड़ा एसएमएस जनाना अस्पताल जयपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सीनियर रेजिडेंसी महिला अस्पताल जयपुर से भी प्रशिक्षण हासिल कर वहां भी चिकित्सा सेवाएं दे चुकी हैं। डॉक्टर सना देवड़ा निसंतानता, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात आने वाली समस्याओं, सिजेरियन डिलीवरी एवं महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज करने में दक्षता प्राप्त हैं। डॉक्टर इशाक देवड़ा ने बताया की शुक्रवार को चिकित्सा केंद्र की शुरुआत के पहले दिन स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सना देवड़ा ने आने वाले सभी महिला मरीजों को अपनी चिकित्सा सेवाएं निशुल्क दी। कुचामन सिटी में अपने चिकित्सा केंद्र



की शुरुआत से पहले डॉक्टर सना देवड़ा ने कुचामन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों पीएमओ डॉक्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर कल्पना जैन गुप्ता, डॉक्टर शकील राव, डॉक्टर सलीम राव, डॉक्टर प्रहलाद बाजिया, डॉक्टर लुकमान खान, डॉक्टर अनीता बाजिया, डॉक्टर रजनी गावड़िया, डॉक्टर ओपी बिशु सहित सभी चिकित्सकों से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया। वरिष्ठ चिकित्सकों ने दुआएं देने के साथ बड़े शहरों में चिकित्सा सेवाएं के बाद कस्बों में चिकित्सा सेवाएं देने के दौरान आने वाली चुनौतियों और लंबे समय तक चिकित्सा क्षेत्र में सफलताएं अर्जित कैसे करें। इस बारे में डॉक्टर सना देवड़ा को जानकारी दी।

खाने के रुपए को लेकर होटल में की तोड़फोड़

जागरूक टाइम्स संवाददाता

कुचामन सिटी। कुचामन के स्टेशन रोड़ स्थित एक होटल में शुक्रवार रात करीब 9 बजे खाना खाने आए दो युवकों और एक युवती की होटल कर्मचारी से रुपए देने की बात को लेकर नोकझोंक हो गई। मामला मारपीट और होटल में तोड़फोड़ तक पहुंच गया। होटल मालिक चेनाराम गुर्जर ने इस संबंध में पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंप आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जिसके आधार पर शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया कि होटल में खाना खाने आए दो युवकों और युवती ने खाना खाने के बाद पैसे देने से आनाकानी करने लगे और लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने अपने अन्य साथियों को यहां बुला लिया जो लाठी, सिरियों से लैस होकर आए और होटल में जमकर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने गल्ले में रखे 25 हजार रुपए भी निकाल लिए और मालिक के गले से सोने के चेन भी तोड़ की। सूचना मिलने पर



कुचामन पुलिस मौके पर पहुंची और 6 आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई जिन्हें शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। इधर शनिवार को गुर्जर समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर क्षेत्रीय विधायक एवं राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद डीडवाना रोड़ स्थित देवनारायण मंदिर में जाकर गुर्जर समाज के लोगों ने आगे की कार्रवाई के विचार-विमर्श किया।

अमन-चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से शनिवार को अजमेर दरगाह के सालाना उर्स के मौके पर झुंझुनू में भी अकीदतमदों ने मोहल्लाह पीराजादान में स्थित दरगाह तारकीन में अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिरती र.आ. के 813वें उर्स के मौके पर ख्वाजा साहब की शान में बाबा हुसामुद्दीन चिस्ती की मजार पर अकीदत के फूल पेशकर देश में अमन, चैन व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष शौकत अली चौहान ने बताया कि अजमेर दरगाह में उर्स पर ख्वाजा साहब के प्रति अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास चादर भेजकर देशभर के मुसलमानों का बड़ा सम्मान किया है। मोर्चा जिलाध्यक्ष चौहान ने बताया कि अजमेर दरगाह को लेकर विपक्ष मुस्लिम समुदाय को पीएम मोदी के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर गुमराह कर रहा था। परंतु विपक्ष को सही अकवाहों पर विराम लादते हुए पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह में बड़ी शान और शौकत के साथ 11वीं बार चादर पेश कर कोमी एकता व भाईचारे का संदेश दिया।



छात्रवृत्ति योजनाएं, दो लाख बीएड- बीएसटीसी विद्यार्थियों को इंटरनेट के लिए स्कूल आवंटन का काम, पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन, अंकतालिका, जिला एवं ब्लॉक स्तर की रैंकिंग, शिक्षकों के तबादले, प्रतिनियुक्ति, भर्ती प्रक्रियाएं, दस्तावेज सत्यापन, जिला संभाग आवंटन, काउंसिलिंग एवं नियुक्ति आदेश जैसे कार्य किए जाते हैं।

बीएड फर्सट ईयर इंटरनेट शिप आवेदन शुरू : प्रदेश के समस्त बीएड कॉलेजों के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को इंटरनेट शिप के लिए प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो दिन अपडेशन का काम चलने पर यह पोर्टल शनिवार से सुचारु ढंग से काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभ्यर्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जबकि 15 से 20 जनवरी के बीच इन अभ्यर्थियों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।

भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन दो मार्च को, हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा क्षेत्र के जन्मे जाए संत आचार्य लोकेश का संकल्प पूरा होने जा रहा है। उनकी पहल पर हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसा संस्थान खड़ा हो रहा है। जो सदियों तक युवाओं को, समाज को लोगों को अच्छा संदेश देता रहा। यह संत की पहल का उद्घाटन दो मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भेंट कर अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नव निर्मित भारत के पहले 'विश्व शांति केंद्र' के उद्घाटन समारोह की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि

गुरुग्राम गुरुओं की धरती है जहां से विश्व कल्याण के कार्यक्रम आचार्य लोकेशजी के मार्गदर्शन में संचालित होंगे। विश्व शांतिदूत आचार्य लोकेश ने बताया कि सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व तप रूपी चार स्तम्भों पर खड़ा सप्त मंजिली भवन का निर्माण अहिंसा विश्व भारती संस्थान ने दो वर्ष में पूर्ण किया है इसके आर्किटेक्चर का दायित्व प्रमनराज के नेतृत्व में चैनई की डी आर्क डिजाइनर कम्पनी एवं निर्माण का दायित्व ओमवीर सिंह के नेतृत्व में एनबी कन्स्ट्रक्शन्स ने निभाया है। इस केन्द्र से विश्व भर में वसुधैव कुटुम्बकम्, भारतीय संस्कृति व भगवान महावीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगीराज कृष्ण, भगवान बुद्ध, गुरु नानकदेव सहित सभी महापुरुषों के संदेश प्रसारित होंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तन उपदेश से नहीं प्रयोग व प्रशिक्षण से आता है। इसलिए इस केंद्र से अध्यात्म व विज्ञान के समन्वय से तैयार किए गए अहिंसा प्रशिक्षण, शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम, युवाओं के व्यक्तित्व विकास, बच्चों के संस्कार निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ध्यान व योग के प्रायोगिक कार्यक्रम नियमित रूप से चलेंगे। जैनाचार्य लोकेश ने बताया कि इस अवसर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेवजी सहित अनेक महापुरुषों ने भाग लेने की स्वीकृति प्रदान कर रखी है। इस मौके पर विराट संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा। गुरुग्राम के म्यूनिसिपल कमिश्नर अशोक ने पिछले दिनों केंद्र का अवलोकन किया एवं आचार्य लोकेशजी व अहिंसा विश्व भारती के कार्यक्रमों से कार्यक्रम से संबंधित जानकारी ली।

विधायक माहेश्वरी ने दिल्ली में चुनावी तैयारियों को भी बैठक



जागरूक टाइम्स संवाददाता
राजसमंद। विधायक दीपि किरण माहेश्वरी ने आज दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को समीक्षा करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना था। माहेश्वरी ने कहा कि दिल्ली के मतदाता भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉ अनिल गोयल का स्वागत करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं को वर्तमान सरकार के काले कारनामों से अवगत कराएं।
मोरारका कॉलेज में विद्यार्थियों ने शतरंज और कैरम में भाग लिया

शाला दर्पण पोर्टल का यूआरएल एड्रेस बदला, दो दिन अपडेशन के बाद बीएड इंटरनेट शिप आवेदन शुरू

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। शिक्षा विभाग के लिए अहम खबर है। विभागीय कार्यों के लिए उपयोगी शाला दर्पण पोर्टल का यूआरएल एड्रेस अब बदल दिया गया है। पहले जिस पोर्टल को एनआईसी डेटा सेंटर की ओर से संचालित किया जा रहा था अब यह भाभाशाह स्टेट डेटा सेंटर यानी बीएसडीसी झालाना के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब यह पोर्टल <https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। जबकि इससे पहले यह <https://rajshaladarpan.nic.in> था। इसके साथ ही बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनेट शिप के आवेदन भी शनिवार से सुचारु रूप से शुरू हो गए हैं। जबकि इससे पहले यह एक जनवरी से शुरू होने थे लेकिन शाला दर्पण पोर्टल पर दो व तीन जनवरी को अपडेशन का काम चल रहा था जो शुक्रवार को पूरा होने के साथ नए पोर्टल एड्रेस के साथ शनिवार से शुरू हो गया है।
यह काम होते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर : शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर सामान्य कार्यों के अलावा लगभग पांच लाख शिक्षकों की एपीआर भरने का काम होता है। इसके अलावा 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों की



संबंधित अभ्यर्थी को दस दिन में आवंटित स्कूल में कार्यग्रहण करना होगा। किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित अभ्यर्थी दस दिनों के भीतर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में अपनी परिवेदना दर्ज करवा सकते हैं। गतिवृत्त समिति इसका निस्तारण करेगी। दूसरे चरण के आवेदन एक से सात मार्च तक होंगे। जबकि 8 से 13 मार्च तक स्कूल आवंटन होगा।
इनका कहना है...
विभागीय समय सारिणी के अनुसार दस जनवरी तक बीएड फर्सट ईयर के अभ्यर्थी इंटरनेट शिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 15 से 20 जनवरी के बीच स्कूलों का आवंटन प्रथम चरण में जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित अभ्यर्थी मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में अपनी परिवेदना दर्ज करवा सकते हैं।
— मनोज कुमार ब्रह्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) झुंझुनू

765 केवी ट्रांसमिशन लाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति की बैठक आज

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति की बैठक रविवार को होगी। संघर्ष समिति के प्रवक्ता कमिरेड कपिल ऐच्य ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे हाईटेशन लाइन से प्रभावित खेतों के नवलगढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गांवों के दो-दो प्रतिनिधियों की समूहिक बैठक रोजेजूसर के ठाकुर जी की बगीची में होगी। जिसमें इस आंदोलन को ओर तेज करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही देवगांव सहित नवलगढ़ ब्लॉक में डाली गई गैस पाइपलाइन से प्रभावित किसानों की जागरूकियों में बिना किसान को सूचना के प्रशासन द्वारा कंपनियों के नाम से लगाए गए स्टे नोट को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। सरकार बैंक डोर से कंपनियों के साथ मिलकर किसानों का हक कर्पनियों के नाम दर्ज कर रहा है। इसको लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। अन्य तहसीलों के जिम्मेदार साथी भी जल्द अपने अपने ब्लॉक के बैठक बुलाकर कोर कमेटी बनाकर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाएंगे।



न्यूज़ ब्रीफ

एनएमटी कॉलेज में खेलों की मची हुई है धूम

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनूं। शहर के सेठ नेतराम मधराज टिबड़ेवाला राजकीय महिला महाविद्यालय में खेलकूद एवं सांस्कृतिक सप्ताह के तहत शनिवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता हुई। शुभारंभ प्राचार्य डॉ. रामकुमार सिंह ने किया। प्रतियोगिता के अंतर्गत खो-खो, लंबी कूद, ऊंची कूद एवं गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। खेल प्रभारी डॉ. प्रीतम सिंह ने बताया कि खो-खो में नीतू कुलहरि, निफिका, मोनिका की कस्टर्वा टीम विजेता रही। जबकि प्रिय, गंगा, वंशिका की मदन टेरसा टीम उप विजेता रही। लंबी कूद में प्रथम नीतू कुलहरि, द्वितीय पूजा भालोटिया एवं वर्षा तृतीय स्थान पर रही। ऊंची कूद में काजल प्रथम तथा नीतू कुलहरि द्वितीय रही। गोला फेंक में पूजा कुमावत प्रथम, नीतू कुलहरि द्वितीय एवं अनामिका तृतीय स्थान पर रही। इस दौरान सहायक खेल प्रभारी कल्पना, सुनिता टेलर, निर्णायक मंडल के रूप में डॉ. रघुराज सिंगोदिया, डॉ. नथूलाल, डॉ. अभिलाषा आबूसरिया, किशोर कुमार, रोहिताश कुमार, सुनीता, डॉ. पूनमचंद चावला इत्यादि उपस्थित रहे।

एबीवीपी ने सौपा कुलपति के नाम ज्ञापन



जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरआर मोरारका कॉलेज के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौपा गया। इकाई अध्यक्ष वंशदीप शेखावत ने बताया कि शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को लूटने का काम किया जा रहा है। जिला संयोजक पंकज सैनी ने बताया कि पहले विद्यार्थियों को साल भर की फीस एक साथ जमा करानी होती थी। लेकिन जब से सेमेस्टर परीक्षा आई है। तब से वर्ष में दो बार फीस जमा होती है। परंतु इस फीस को कम नहीं किया गया है। नगर सह मंत्री अमर प्रताप ने बताया कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा संज्ञान लेकर आगामी तीन दिन के अंदर फीस को कम नहीं किया जाता है तो मजबूरन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होगी। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, सुरभि पुरोहित, खुशबू, दीपिका, रविंद्र सिंह, हर्षित सैनी, अभिनव, मंजीत, कुलदीप सिंह, यश शर्मा, आयुष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दूसरा निशुल्क होम्योपैथिक शिविर आठ को

जागरूक टाइम्स संवाददाता

चिड़वावा। स्व. हजारीलाल सोलंकी पुत्र स्व. मोहनलाल सोलंकी की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा लगातार दूसरी बार निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन आठ जनवरी को किया जाएगा। शिविर संयोजक व स्व. हजारीलाल सोलंकी के पुत्र वीरेंद्र सोलंकी ने बताया कि बावलिया बाबा के निर्वाणोत्सव पर मेले वाले दिन बावलिया बाबा की समाधि स्थल पर यह शिविर सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें विषयवस्तु होम्योपैथी मुरलीपुरा जयपुर के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। शिविर की पूर्व तैयारियों में वीरेंद्र सोलंकी, अमित सोलंकी, धर्मवीर चावला, विनोद सोलंकी, संदीप सोलंकी, संदीप कुमार आदि लगे हुए हैं।

140 बच्चों को स्टेर वितरण

जागरूक टाइम्स संवाददाता

उदयपुरवाटी। नगरपालिका कस्बे में स्थित आठ आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले छोटे बच्चों को सनम किन्नर ने बढ़ती हुई सर्दी को देखकर सरकारी स्कूल खेल मैदान में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्म स्टेर वितरित की। जानकारी के अनुसार राजू हाजी की शिष्या सनम किन्नर द्वारा सर्व समाज के बीच पहुंच कर यजमानों से बधाइयों की राशि का सदुपयोग करते हुए गरीब तथा असहाय लोगों की मदद करने में अपना अहम योगदान देती हैं। सनम किन्नर का कहना है कि खुशहाली की कामना के लिए ही धर्म कर्म करते हैं। जब हमारे यजमान खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। इस दौरान किसान नेता धनाराम सैनी, स्नेहा राजपूत पुत्री सनम बाई, आंगनबाड़ी से मनपकली योगी, सुमन योगी, राजबाला, चंद्रकला सैनी, मीनू सैनी, संगीता कंवर, सुमन कंवर, विजेता कंवर, मंजू सैनी, विद्या शर्मा, सुमन राठी, करुणा शर्मा, अनीता, मीरा, संतोष, शांति, ललिता, कृष्णा, राजेश, उषा सहित आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता व सहायिका एवं आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं।

नवतर्ष पर कवि गोष्ठी आयोजित

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनूं। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था राजस्थान के तत्वावधान में जांगिड़ अस्पताल परिसर में नवतर्ष पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. दयाशंकर जांगिड़ ने की। मुख्य अतिथि समाजसेवी कैलाश चोटिया तथा विशिष्ट अतिथि मुरली मनोहर चोबदार रामावतार सबलानिया सीताराम घोड़ेला थे। शब्दाक्षर राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रसाद सिंह ने सबको नवतर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि साहित्यकारों को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। कविता की गूंज चहूँओर उमंग उल्लास व नवाचारों का सुजन करती है। सज्जन जोशी ने मां शारदे की वंदना की। मुख्य अतिथि कैलाश चोटिया ने कहा कि ऐसे आयोजन से साहित्य व समाज में नव उर्जा का संचार होता है। शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दयाशंकर जांगिड़ ने नवतर्ष की बधाई देते हुए कहा कि हम अधिक सक्रिय रहकर हिंदी साहित्य का विकास करें। शब्दाक्षर का राष्ट्रीय आयोजन इस बार राजस्थान में होने की घोषणा पर हर्ष की लहर दौड़ी। काव्य गोष्ठी में शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था के जिलाध्यक्ष कवि रमाकांत सोनी, डॉ. कैलाश शर्मा, गोविंद, कविचित्री रेवा, शौनक, सुरेश कुमार जांगिड़, महेंद्र कुमावत, राजेश जैन, रिद्धकरण बासोतिया, सज्जन जोशी ने नवतर्ष पर सरस कविता पाठ कर समां बांधा। इस अवसर पर अखिलेश शर्मा, सीताराम वर्मा, सुरेंद्र ख्यालिया, टीएम त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम पर सावित्री बाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षक समाजसेवी को उनकी जयंती पर याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन कवि रमाकांत सोनी ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

फिल्म बावलियो पंडित में बाबा की भूमिका

निभाने वाले क्षितिज कुमार बुगाला आएंगे

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बुगाला। हिंदी व राजस्थानी फिल्म बावलियो पंडित के अभिनेता व फिल्म निदेशक क्षितिज कुमार बाबा के निर्वाणोत्सव पर सात जनवरी को बुगाला आएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार मुंबई की अपेक्षा जनस्थली में होने वाले समारोह में शक्ति होगी। इनके साथ तिर्ंगा चालीसा के लेखक, राष्ट्र भक्त कवि व गीतकार अशोक हिंदुस्तानी, सेल्यूट तिर्ंगा राष्ट्रवादी संगठन के एडवोकेट मदन मोहन पालीवाल भी होंगे।

बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओमप्रकाश चौधरी व राघवेन्द्र सिंह चौहान की युगल जोड़ी ने जीता खिताब

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़ी। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा द्वारा पुलिस अधिकारियों,जवानों एवं कार्मिकों में ड्यूटी के दौरान मानसिक तनाव को कम करने,खेलों के प्रति रुझान व स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को बढ़ाने एवं उत्साहवर्धन के लिए आज शनिवार को सुबह 9 बजे से पुलिस लाइन धौलपुर एवं बूज बैडमिंटन अकादमी, हुंडावाला रोड़, सुरजीत नगर धौलपुर में धौलपुर पुलिस खेलकूद टूर्नामेंट 2024 के द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आज शनिवार को सुबह 9 बजे से बूज बैडमिंटन अकादमी, हुंडावाला रोड़,सुरजीत नगर धौलपुर में बैडमिंटन के मैच खेले गये।

बैडमिंटन प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। जिसका फाइनल मुकाबला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा व अंकुर कौशिक निजी सहायक एवं ओमप्रकाश चौधरी वरिष्ठ लिपिक व राघवेन्द्र सिंह चौहान की युगल टीम के मध्य खेला गया। जिसमें दोनों टीमों के खिलाडियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। रोमांच से सरोवर एवं कड़े संघर्ष के मुकाबले में ओमप्रकाश चौधरी व राघवेन्द्र सिंह चौहान की युगल जोड़ी ने पुलिस



अधीक्षक सुमित मेहरड़ा व अंकुर कौशिक की युगल जोड़ी को 15- 21,21-12,21-18 से हराकर खिताब जीत लिया। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुलिस लाइन की टीम ने सैंपक सर्किल की टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में सैंपक सर्किल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 60 रन बनाए, 61 रनों का पीछा करते हुए पुलिस लाइन की टीम ने 7 वें ओवर में 4 विकेट खोकर 62 रन का लक्ष्य हासिल कर मुकाबला जीत लिया। तथा फुटबॉल

का फाइनल मुकाबला पुलिस लाइन और आरएसी के मध्य खेला गया। जिसमें पेनल्टी शूट आउट में पुलिस लाइन की टीम ने 4-2 से शानदार जीत हासिल की एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुलिस लाइन की टीम ने आरएसी की टीम को 41-16 से हराकर मुकाबला जीता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के माताजी और पिताजी ने विशेष तौर पर उपस्थित रहकर खिलाडियों की हौंसला अफजाई की। इसके साथ ही आज पुलिस लाइन धौलपुर में नववर्ष-2025 मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एसएफआई ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौपा

जागरूक टाइम्स संवाददाता

नवलगढ़। मोरारका महाविद्यालय में शनिवार को एसएफआई छात्रों ने शेखावटी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्नातक प्रथम एवं तृतीय व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र संगठन एसएफआई ने कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौपा। जिला महासचिव आशीष पंचर ने बताया कि नई शिक्षा नीति से पहले वार्षिक परीक्षाओं के दौरान एक साल की फीस केवल 1100 रुपए ली जाती थी। अब इस बार स्नातक प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की फीस नियमित विद्यार्थी से 1300 रुपए मांगी जा रही है। अगर प्रैक्टिकल विषय है तो प्रत्येक विद्यार्थी से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 100 रुपए अलग से लिए जाएंगे। कॉलेज कमेटी अध्यक्ष अमित सैनी ने बताया कि पहले बीएससी में कुल 13 पेपर लगते थे। जिनका विद्यार्थी से 1100 रुपए खर्च लिया जाता था। अब विद्यार्थी के एक सेमेस्टर में 6 पेपर लगते हैं फिर भी विवि प्रशासन द्वारा उनसे 1300 रुपए का खर्च वसूला जा रहा है। छात्र नेता कर्मवीर गुर्जर ने



बताया कि स्नातकोत्तर के नियमित विद्यार्थी के पहले एक साल के 1540 रुपए लगते थे। अब दोनों सेमेस्टर को मिलाकर विवि प्रशासन द्वारा 3720 रुपए वसूले जाएंगे। गौरव वर्मा ने बताया कि इस वर्ष फीस में अनुचित वृद्धि की गई है। जो कि विद्यार्थी विरोधी है। कॉलेज कमेटी महासचिव रोशनी वर्मा ने बताया कि शेखावटी विवि ने एजाम फॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर विद्यार्थियों को नए साल में टगना शुरू कर दिया है। संयुक्त सचिव रहीश सेवदा ने बताया कि कुलपति ने फीस बढ़ोतरी के अपने मन माने फरमान जारी किए हैं वो वापस लें। अन्यथा छात्र संघटन एसएफआई विद्यार्थियों को लामबद्ध कर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा।

श्री वैकटेश दिव्य कथा महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

खिरोड़। धार्मिक तीर्थ स्थल लोहागल धाम की सिद्ध पीठ वैकटेश बालाजी में तीन दिवसीय वैकटेश दिव्य कथा के दूसरे दिन कथा महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रीवैकटेश पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अश्विनी आचार्य के सांनिध्य में चल रही इस दिव्य कथा में व्यास पीठ से पंडित श्री रवि कुमार जी शास्त्री बुगाला वाले के द्वारा भक्तों को भगवान वैकटेश की तिरुमला तिरुपति की महिमा व भू देवी, श्रीदेवी का मिलन व रामानुज स्वामी के द्वारा भगवान श्रीवैकटेश को दक्षित करने का चरित्र रसावधान कराया गया। इस दिव्य संगीतमय वैकटेश कथा में अमन पाराशर द्वारा व्यास पीठ की वाणी में सम्मिलित होकर श्रीवैकटेश बालाजी के भजनों पर भक्तों को खूब रिझाया एवं कथा के प्रारंभ में व्यास पीठ का पूजन कृष्ण मोहन डीडवाना वालों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया एवं कथा के मुख्य लक्ष्मी वैकटेश के शेषांचल पर्वत पर मिलन उत्सव पर कथावाचक को साफा पहनाकर बधाई दी। शुभम शास्त्री द्वारा आरती कर पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अश्विनी आचार्य महाराज के मंगलशासन में भक्तों को आशीर्वाद व प्रसाद वितरित किया गया।

गांव के बेटे का कमाल : विदेशी कंपनी में मिला लाखों का पैकेज, आईआईएम लखनऊ में प्लेसमेंट के दौरान हुआ चयन

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडूला। कहते हैं अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य बनाकर ठान ले और उसके लिए कड़ी मेहनत करें, तो उसे सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है। इसी वाक्य को अपने जीवन में उतारकर मेहनत से झुंझुनूं जिले के मंडूला कस्बे के लाल नवजोत सिंह शेखावत (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस फर्नीचर डिजाइन सोल्यूशंस कंपनी में से एक (रॉकवर्थ इंटरनेशनल,थाईलैंड) में चयनित होकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। नवजोत के पिता अरविंद सिंह शेखावत प्रॉपर्टी डीलिंग और खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं व माता



प्रकाश कंवर गुहणी है। नवजोत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक निजी विद्यालय से प्राप्त की इसके बाद व बीकॉम करने के लिए अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा चले गए जहां से बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरी की और जांब के साथ-साथ केट परीक्षा की तैयारी शुरू की और वर्ष 2022 में नवजोत को केट परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई और उनका चयन आईआईएम लखनऊ में हुआ। जहां से उन्होंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट में शिक्षा प्राप्त की। जिसके बाद कैम्पस प्लेसमेंट में उन्हें थाईलैंड बेस कंपनी द्वारा 24 लाख का पैकेज ऑफर हुआ। महज 26 साल की उम्र में नवजोत ने विदेश तक झुंझुनूं जिले और अपने गांव की पहचान कराई है। नवजोत की इस सफलता पर ग्राम पंचायत सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत,

भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश सोनी, पूर्व पंसस विनोद सिंह निर्वाण, अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष सुशील रूंगटा, पंसस नफीस मंडेलिया, ब्राह्मण समाज महिला अध्यक्ष सविता शर्मा, बाल राम श्रेणी रामलीला संस्थापक शंकरशरण पोलीवाल, एडवोकेट ईशान मिश्रा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने बधाई प्रेषित की।

सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा की मेहनत : बातचीत में नवजोत सिंह शेखावत ने बताया कि मैंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और आज मैं उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। नवजोत ने कहा अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।

स्व. पुष्पा देवी बासोतिया के जन्मदिन पर कम्बल और च्यवनप्राश का वितरण 7 को

जागरूक टाइम्स संवाददाता नवलगढ़। भगवान कृष्ण के परम भक्त और उद्योगपति-समाजसेवी गोविंदराम बासोतिया की धर्मपत्नी स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया के

के कमजोर वर्गों की मदद के लिए भी एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। ट्रस्ट के सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेकर न केवल पुष्पा देवी की यादों को संजोएंगे। बल्कि



जन्मदिन सात जनवरी के अवसर पर गोविंदराम बासोतिया चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कम्बल और च्यवनप्राश का वितरण किया जाएगा। स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया के निधन के बाद से यह वितरण प्रक्रिया निरंतर जारी है, और उनके द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों से समाज में उनकी एक अमिट छाप बन चुकी है। इस साल भी उनके जन्मदिन के अवसर पर नवलगढ़ में इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई स्थानीय लोग और समाजसेवी शामिल होंगे। स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया के पुत्र और विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष विजय कुमार बासोतिया ने बताया कि गोविंदराम बासोतिया चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक कार्य हो रहे हैं और यह ट्रस्ट समाज

उनकी प्रेरणा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित होंगे। आपको बता दे की इसी दिन यानि सात जनवरी को सीकर में गोपीनाथ गौशाला में गौमाता के लिए एक लाख रूपए का चेक दिया जाएगा और चूरू में कम्बल वितरण व झुंझुनूं में स्टेर, मौजे व शूज का वितरण भी किया जाएगा। इस आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जो इस नैक कार्य में अपना योगदान देंगे। यह कार्यक्रम समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया की समाजसेवा की अद्भुत मिसाल को जीवित रखेगा।

मंडावा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का जन्मोत्सव मनाया

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडावा। भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप शर्मा ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सब मिलकर कार्य करें। संदीप शर्मा शनिवार को फतेहपुर बस स्टैंड स्थित सिंहासन हवेली में भाजपा नगर अध्यक्ष मोहनलाल सैनी की अगुवाई में आयोजित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के जन्मोत्सव कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।



उन्होंने कहा कि जब युवा अपने विचारों और ऊर्जा का योगदान राष्ट्र की समृद्धि में करेगा तो निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के उज्ज्वल भविष्य तथा

दीर्घायु की कामनाएं भी की। इस अवसर पर पूर्व पार्षद कैलाश पीपलवा, एसएन इंदोरिया, सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सैनी, पार्षद संदीप परिहार, बाबूलाल सैनी, युवा नेता सचिन तुनवाल, आलोक शर्मा उर्फ बबलू, संजय परिहार, अभिषेक सैनी, संजय पंचार, मनोज सैन उर्फ चिंदू, मनीष सैनी, पंकज कुमावत, विशाल सिरखा, अमित कुमावत सहित अनेक भाजपाई उपस्थित रहे।

पेज एक का शेष...

ईआरसीपी से प्रदेश की 40...

डूंगरपुर जिले के लिए हुए लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू:- शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राईजिंग

राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले के लिए भी लगभग 1500 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए हैं। इस निवेश से डूंगरपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पूर्ण पारदर्शिता से हो रहा परीक्षाओं का आयोजन:- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाया है और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 47 हजार युवाओं को नियुक्तियां देने का काम किया है। जनवरी में होने वाले आयोजन में भी 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 81 हजार नौकरियों के लिए वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। शर्मा ने कहा कि

वागड क्षेत्र की उन्नति के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। स्थानीय जल संचय के कार्यों में भी राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी बजट की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र के सभी वायदों को पूरा करेगी।

जलशक्ति मंत्रालय देगा खडगदा गांव को विशेष स्थान:- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श. अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ने की ईआरसीपी पीकेसी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। लगभग 70 हजार करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना में 90 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार और पांच-पांच प्रतिशत अंशदान मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार देंगी। परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद राज्य में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जन सहयोग से राजस्थान के 40 हजार गांवों में वाटर रिचार्ज के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे। पाटिल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर क्लिक द रैन अभियान में खडगदा गांव के इस प्रयास को विशेष स्थान दिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शौर्य के प्रतीक तिर कमान भेंट किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा और

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री पाटिल ने खडगदा मोरन नदी पर जल संचय कार्यों का अवलोकन किया एवं नदी के घाट पर जनभागीदारी से तैयार किया गया 55 लाख लीटर जल संग्रहण की क्षमता वाला कुआं आमजन को समर्पित किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक कैलाश चंद्र मीणा, उदयलाल डिंगी, शंकरलाल डेचा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी भास्कर ए. सावंत, कथावाचक कमलेश शास्त्री, साधु-संत तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जिसे किसी ने नहीं पूछा, उसे...

हमने विश्वकर्मा योजना चलाई:- कृषि के अलावा लोहार, कुम्हार जैसे ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत योगदान रहा है। पहले इनकी लगातार उपेक्षा हुई, लेकिन हम इन्हें नए नए उत्पाद तैयार करने, स्किल बढ़ाने, सस्ती दरों पर सामान दिलाने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं।

25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए:- हमने आदिवासी इलाकों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका ही फल है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 में गांवों में गरीबी 26 प्रतिशत थी, जो 2024 में घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

महिलाएं अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं:- आज गांव में बैंक सखी और डीमा सखी के नाम से महिलाएं गांवों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रही हैं। गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्रांति कर रही हैं। आज जितना गांव के विकास पर फोकस किया जा रहा है उतना कभी नहीं हुआ।

हमने चार लाख किमी लंबी सड़कें बनाईं:- पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत दस साल में 4 लाख किमी लंबी सड़कें बनाई गई हैं। हमारे गांव के लोगों ने उनको इटुला दिया है जो सोचते थे गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं अपना पाएंगे। आज देश में 94 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में टैलीफोन या मोबाइल है। गांवों में भी बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं हैं।

विश्व की सबसे उम्रदराज जापानी...

20 साल की उम्र में हुई थी शादी:- 20 साल की उम्र में इटूका की शादी हुई थी। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। 1979 में पति की मृत्यु के बाद इटूका नारा में अकेली रहती थीं। नगाटा ने कहा कि फिलहाल उनके परिवार में एक बेटा, एक बेटा और पांच पोते-पोतियां हैं।

वेट कम करने के लिए आप कैलोरीज गिन कर खाना शुरू कर देते हैं, अलग-अलग डाइट प्लान फॉलो करते हैं और भी ना जाने क्या-क्या। आप चाहे खाने में जो भी बदलाव करें, इसके साथ एक चीज और बदलें, जो है रोजाना अपनी डाइट में हेल्दी ड्रिंक्स शामिल करना। गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल की चीफ डाइटीशियन नीलिमा बिष्ट का कहना है, “वजन कम करने के लिए पानी सबसे अच्छा ड्रिंक है, यह बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और वेटलॉस में भी मदद करता है। इसके अलावा कॉफी, ग्रीन टी, वैजिटेबल जूस और स्मूदीज भी फायदेमंद हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, तो सोडा, कोला, पैक्ड जूस पीना बिल्कुल बंद कर दें। इनमें शुगर और कैलोरीज दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं।”

फैंसी डाइट से नहीं, इन ड्रिंक्स से

तेजी से घटेगा वजन



ग्रीन टी
ग्रीन टी आपकी हेल्थ और वेट दोनों के लिए अच्छी है। यह एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। साथ ही यह पोषण भी देती है। वजन घटाना है, तो इसे अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, भूख कम करती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना हो, तो सुबह खाली पेट पिएं। खाने के बाद भी पी सकते हैं। अगर डाइजेशन की समस्या हो, तो इसे खाने के एकदम बाद ना पिएं।



कॉफी

अच्छे मूड के साथ वेटलॉस का तोहफा भी आपको नियमित कॉफी पीने से मिलता है। यह शरीर में फर्जी बढ़ाती है और मूड लिफ्ट भी करती है। इसमें कैफीन होता है, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फेट बर्न करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कॉफी में भरपूर चीनी और क्रीम मिला कर पिएं।



हाई प्रोटीन ड्रिंक्स

यह भी देखा गया है कि हाई प्रोटीन ड्रिंक्स वजन घटाने में मददगार साबित होते हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और भूख कंट्रोल होती है, जिससे कैलोरी इन्टेक कम होता है। ऐसे ड्रिंक्स में सतू व चने का सूप बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। कोशिश करें कि इनमें बटर व मीठा ना डालें।

वैजिटेबल सूप या जूस

ताजी सब्जियों का सूप या जूस दोनों ही वेटलॉस में बहुत मददगार साबित होते हैं। इनमें कैलोरीज कम होती हैं और न्यूट्रिशन भरपूर होता है। अगर आप सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो यह सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने का अच्छा तरीका है। जूस व सूप बनाने समय उसमें एक्सट्रा शुगर, क्रीम व मलाई मिलाने से परहेज करें। चार्हें, तो सूप को गाढ़ा करने व उसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में कोकोनट मिलक मिला सकते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने वेटलॉस करने की



कोशिश के दौरान अपनी डाइट में वैजिटेबल जूस व सूप को शामिल किया, उन्हें इससे दोहरा फायदा हुआ। एक तो उनकी डाइट में सब्जियों की मात्रा बढ़ी और दूसरा उनकी डाइट से कार्ब्स की मात्रा कम हुई।


क्या कहता है आयुर्वेद

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है, “वजन कम करना मुश्किल काम हो सकता है। इस काम के लिए बैलेंस्ड डाइट, नियमित प्रयास और लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत पड़ती है। वेटलॉस के लिए आयुर्वेद में कई कारगर नुसखे हैं, लेकिन इन्हें जब भी आजमाएं, तो यह सोच कर आजमाना शुरू करें कि आपको पलक झपकते ही नतीजे दिखने शुरू नहीं होंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा।”



त्रिफला को अपनी डाइट में शामिल करें। चार्हें तो इसे सुबह पानी में घोल कर पिएं या फिर रात को सोने से पहले एक चम्मच त्रिफला को गरम पानी के साथ लें। जिन लोगों को डाइबिटीज के कारण वजन कम करने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह बहुत मददगार है। इससे बैली फैट कम करने में मदद मिलती है।

आधा चम्मच मेथीदाने को एक कप पानी में रातभर के लिए भिगो दें। सुबह इसका पानी पी लें और मेथीदाने को चबा लें। इससे वेटलॉस, डाइबिटीज और वॉटर रिटेंशन कम करने में मदद मिलती है।



आयुर्वेद के अनुसार गरम पानी शरीर को स्वस्थ रखने और कई बीमारियों का उपचार करने में मदद करता है। इससे पाचन क्रिया सुधरती है और खाना ठीक से पचता है। गरम पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है।



छाछ को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाएं। इसमें कैलोरीज तो बहुत कम होती ही हैं, यह खाना पचाने में भी मदद करती है। इससे पेट भी भरता है, जिससे आप खाना कम खाते हैं। खाने के साथ छाछ पिएं, तो यह खाने के पोषक तत्वों को शरीर में एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगी।



खाली पेट पानी में शहद डाल कर पिएं। शहद में कई गुणों के साथ एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें नीबू का रस भी डाल सकते हैं।



हरी मूंग का सूप वजन कम करने के साथ आपको भरपूर एनर्जी, फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स देता है। इसमें थोड़ी काली मिर्च और नीबू का रस डालें।



पात्र व्यक्ति को मिले सरकारी योजना का लाभ: देवासी

राज्य मंत्री देवासी ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी शनिवार को जिले के दौरे पर रहे। राज्यमंत्री देवासी ने सर्किट हाउस में आमजन की परिवेदनाएं सुनी तथा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी भेंट की। जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर लगवाने, योजना के तहत स्कूटी दिलाने, राजस्व ग्राम बनाने, सड़क की मरम्मत



करवाने, रास्ता खुलवाने आदि परिवेदनाएं प्राप्त हुईं। जिस पर राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने प्रत्येक पात्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री देवासी ने आम जन की

समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए विश्वास दिलाया कि समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। भूपेंद्र देवासी, रोहित खत्री, नारायण देवासी, जम्बरसिंह, गोविंद माली, महेंद्र माली, दिनेश वैष्णव, विक्रमसिंह, लोकेश खंडेलवाल, हेमलता पुरोहित, रमजान खान, जीतू खत्री, प्रवीण राठौड़, बाबूसिंह, नैनसिंह राजपुरोहित, मगन मीणा, अमराराम प्रजापत, अनिल प्रजापत, प्रथम खत्री, सिद्धार्थ देवासी, साबूसिंह, जीतू गर्ग, गीता पुरोहित, कैलाश मेघवाल एवं शैतानसिंह आदि मौजूद थे।

राज्यमंत्री देवासी ने शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांडस



जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने शनिवार को बाबा रामदेव होटल ग्रुप के एमडी रघुभाई माली के बड़े भाई लालाराम पुत्र पुनमाराम माली के निधन पर उनके निवास भाटकड़ में जाकर शोक संतप्त परिवार को ढांडस बंधाया। उन्होंने लालाराम माली के तस्वीर के

समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर परिवार जनों के समक्ष संताना व संवेदना प्रकट की। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली, पूर्व पालिकाध्यक्ष व माली समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ताराराम माली, विहिप जिलाध्यक्ष शंकरलाल माली, जगदीश देवासी, मनोज माली एवं नवाराम माली आदि मौजूद थे।

नकली होलाग्राम लगी महंगी विदेशी शराब के 92 कार्टन बरामद, एक गिरफ्तार



जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। आबकारी विभाग की ओर से चलाए विशेष अभियान के तहत शनिवार को आबूरोड के वासडा गांव में विशेष कार्रवाई कर नकली होलाग्राम लगी महंगी विदेशी शराब के 92 कार्टन बरामद कर एक जने को गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि मुखबिर सूचना के आधार पर सहायक आबकारी अधिकारी सैयद बशरत अली एवं आबूरोड के वृत्त निरीक्षक रविन्द्रप्रतापसिंह आबूरोड के वासडा में कर्माजित मंदिर दुकान के पास बने कमरे के कब्जा के बीच रखी विभिन्न ब्रांड की महंगी विदेशी इम्पोर्टेड शराब के कुल 92 कार्टन बरामद किए। जिसमें से 60 कार्टन नकली होलाग्राम एवं स्टीकर्स लगे मिले। शेष कार्टन बिना होलाग्राम युक्त मंदिर अग्रामद किए। बरामद शराब की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 20 लाख अंकी गई।

मुख्य संचालनकर्ता की तलाश जारी
कार्रवाई के दौरान तेलीवाडा परसोला प्रतापगढ़ निवासी मनोहरलाल पुत्र पृथ्वीराज को मौके से गिरफ्तार किया जबकी एक अन्य आरोपी पीराका भरतपुर निवासी पुष्पेन्द्र चौधरी अंधेरे का फायदा उठाकर शराब दुकान के पीछे बने नाले से भागकर फरार हो गया। मुख्य संचालनकर्ता बिशनपुरा झुंडू निवासी नवीन कुमार के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

इनका रहा सहयोग
आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में प्रहराधिकारी देवाराम चौधरी, शिवाराम व अन्य जाब्ता मौजूद रहे। पूर्व में भी आबकारी विभाग द्वारा डेरा एवं वासडा में नकली होलाग्राम वाली मंदिर पर कार्रवाई की गई थी।

‘खेलों से होता है शारीरिक विकास, खेलना चाहिए खेल भावना से’

लिखमीदास क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए पांच मुकाबले

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। अरविंद पैवेलियन में चल रही लिखमीदास क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन शनिवार को पांच मुकाबले हुए। रविवार को दो सेमीफाइनल एवं मेगा फाइनल मैच खेला जाएगा। आयोजन कमेटी के संरक्षक प्रकाश बी माली ने बताया मुख्य अतिथि एडवोकेट एमडी माली एवं जगदीश एम माली नर्सरी के आतिथ्य में खिलाड़ियों को मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। एडवोकेट माली ने कहा कि खेलों से समाज का विकास होता है और खेलों से समाज में एक दूसरे युवाओं का जुड़व बढ़ता है। खेलों से शारीरिक विकास होता है। ऐसे में खेल भावना से ही खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को हार से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि नई ऊर्जा के साथ तैयारी करना चाहिए जिससे आगामी प्रयासों में सफल होने की ऊर्जा तैयार होती है।



इन्होंने दिखाया दम
आयोजन कमेटी के अध्यक्ष जयंतिलाल माली ने बताया कि पहला मैच गोयली स्टार बनाम आबूरोड के बीच खेला गया। जिसमें गोयली स्टार ने 4 विकेट से जीत दर्ज करवाई। इसमें गोपाल माली मैच ऑफ द मैच रहे। दूसरा क्राटर फाइनल मैच सचियाव माता जावाल बनाम चामुंडा 11 मंडार के बीच हुआ। जिसमें सचियाव माता की टीम 3 विकेट से जीती। इसमें अमृत माली मैच ऑफ द मैच रहे। तीसरा क्राटर फाइनल मैच वीर वॉरियर्स सिरोही बनाम सांवरिया सेट 11 के बीच हुआ। जिसमें सांवरिया सेट 8 विकेट से जीता। इसमें जगनेश सैनी मैच ऑफ द मैच रहे। तीसरा क्राटर फाइनल मैच रॉयल क्लब पिण्डवाड़ा एवं झाड़ोली के बीच खेला गया। जिसमें झाड़ोली केपिटल 3 विकेट से जीता तथा सागर सांलकी मैच ऑफ द मैच रहे। चौथा क्राटर फाइनल मैच सुंधा क्रिकेट क्लब सिरोही बनाम स्टार गोयली के बीच हुआ। जिसमें सुंधा क्रिकेट क्लब 42 रन से जीता। मैच ऑफ द मैच अरविन माली रहे।

समापन समारोह में यह रहेंगे अतिथि
आयोजन कमेटी के सचिव दिनेश माली ने बताया की समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद सदस्य पुखराज गहलोत, अध्यक्षता आरजेएस सुशी शिवानी सोलंकी, अजय गहलोत, रणछेड़ भाई, जगदीश माली, विशिष्ट अतिथि शांतिलाल माली चेन्नई, आनंद माली, गेनाराम माली, चंपत माली, मोटाराम माली, सुरेश माली हैदराबाद, मीठालाल माली, मोहन बी माली, धनराज माली, हीराभाई माली, चम्पत माली, मगाराम माली, शांतिलाल बी माली, आदाराम माली, जगदीश बी माली, पंकज भाई माली, जोधराज माली, डयालाल माली, छगनलाल माली, भंवरलाल, भरत कुमार, कानाराम, मुकेश माली, हितेश माली, जगदीश भाई माली आदि उपस्थित रहेंगे।

राज्यसभा सांसद डांगी का मनाया जन्मदिन

जरूरतमंदों को वस्त्र व कंबल का किया वितरण

जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विकलांग, विधवा महिलाओं, असहायों व जरूरतमंदों को शॉल, कंबल, साड़ी, स्वेटर वितरित किए गए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी के मागदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक दिनेश मेघवाल, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हाजी वजीर पठान के अनुसार नगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर आयोजित कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष जेपीसिंह सैनी समाज अध्यक्ष राजेंद्र सैनी, सुमित जोशी, मेघवाल, दिवाकर पठान, अमराराम गरासिया, नारायणलाल प्रजापत, हीरसिंह ने कहा कि सांसद डांगी ने सभी को अपने परिवार की तरह प्यार दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष डांगी को बधाई प्रेषित करते हुए जरूरतमंद बालिका से केक कटवाया। कार्यक्रम में दो सी से अधिक लोगों को कंबल, स्वेटर, साड़ी व कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर



नगर सेवादल अध्यक्ष जसाराम बोस, पार्षद अंजली जोशी, सुमित जोशी, सुनील खोत, हुसेन मोहम्मद, हैदर पठान, राहुल बरोट, गौरव परिहार, लक्ष्मीकांत चौहान, ओबीसी प्रकोष्ठ के दलपत प्रजापत, अब्दुल कयूम, रणवीरसिंह राठौड़, विप्र समाज के सत्यनारायण शर्मा, हस्तू मीणा, कपिल चौहान, उप प्रधान और जिला प्रवक्ता ललितसिंह सांखला, वनजी महाराज, नन्हे खान, दलाराम जोगसन, मोहम्मद अयसलम, मूलानाम कालबेलिया, अभिनवसिंह आदि मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का जन्म दिन मानपुर के ज्ञानदीप भवन में मनाया

गया। ब्लॉक अध्यक्ष गणेश बंजारा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान लीलाराम गरासिया, ब्लॉक के कांग्रेस जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉल कर डांगी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। डांगी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना से प्रार्थना की। सभी ने मिलकर केक काट काटा। सरकारी



रेवदर। राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का 55वा जन्मदिन गौ-सेवा संकल्प दिवस एवं हेलिंग डे के रूप में मनाया गया। सरसी गोशाला में जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष हिमपालसिंह देवल के नेतृत्व में गांधी को चारा एवं गुड़ खिलाकर पौधरोपण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवदर में मरीजों को फल वितरण एवं क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। जिला उपाध्यक्ष देवल ने बताया कि क्षेत्र में नीरज डांगी के जन्मदिन के अवसर पर गोशालाओं में चारा वितरण एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता कर मनाया जा रहा है।

अस्पताल में मरीज को फल-फ्रूट वितरित किए गए। गोशाला में गांधी को गुड़ व चारा खिलाया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजेश गहलोत, कीर्ति कच्छवा, सागरमल अग्रवाल, ओबीसी जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव अजय बंजारा, सरारा समाज प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना परमार, धोबी समाज प्रदेश अध्यक्ष नवीन सांखला, सुनील एडवोकेट, हीरसिंह इंडा, गोविंद अग्रवाल, एएससी ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल भाटी, मंडल अध्यक्ष प्रेमराम गरासिया, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बंजारा, सेवादल महिला जिलाध्यक्ष पूजा राणा, युवा सेवादल जिलाध्यक्ष कपूरचंद मेघवाल, गोपाल शर्मा, बीके शकुंतला देवी, जोधासिंह, डॉ. शेर मोहम्मद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे।

जिला महासचिव लाखाराम चौधरी, मजहर हुसैन, खगर मेघवाल, मार्केटिंग के पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश पालीवाल, देवाराम पुरोहित, लक्ष्मणसिंह, पुनमचंद पुरोहित, मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल कोली, पिंठू मेघवाल, पूर्व सरपंच गुलाबसिंह देवडा, भवानीदान करोटी, नारायण प्रजापत, शैलेन्द्रसिंह भाटी, विनोदसिंह सोलंकी, दिनेश माली, सनी अग्रवाल, सरफराज खान, रविन्द्रसिंह, जैसाराम मेघवाल, दलपतसिंह भैरूगढ़, गोविन्द्रसिंह, बाबुराम मेघवाल, रतन मेघवाल, जयंती मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

एनएसएस शिविर में की स्वास्थ्य जांच पर चर्चा



जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। राजकीय महाविद्यालय में चल रहे सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के तीसरे दिन शनिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) व राष्ट्रीय सेवा योजना तत्वावधान में अहिल्या बाई होलकर के 300वें जन्मदिवस के अवसर पर संगोष्ठी मुख्य अतिथि अभिषेक पुरोहित की उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो अजय शर्मा ने किया पुरोहित का स्वागत किया। इसके बाद पुरोहित ने अहिल्या बाई होलकर पर एक प्रेरणादायक और गहन भाषण दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की जिलाध्यक्ष प्रो रुचि पुरोहित, जिला सचिव खेमराज चौधरी और इकाई सचिव वीरेंद्रसिंह गुर्जर उपस्थित रहे। डॉ. गौरव गहोई आर्ग्यूमेंटिक थिक्त्सक अधिकारी शिविर में उपस्थित हुए। उनका स्वागत भी प्राचार्य ने उपहार और माला देकर किया। डॉ. गौरव ने आयुर्वेद के महत्व और बिना दवाई के कैसे हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर गहन भाषण दिया। उन्होंने बताया कि योग, ध्यान, पानी, आहार, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरे सत्र में डिस्कॉम के कार्यकारी अभियंता इंदरदान चारण ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए छात्रों को पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। चारण ने छात्रों को भारत सरकार की पीएम सीधे घर परियोजना के वित्तीय लाभों की जानकारी दी।

घरेलू गैस सिलेंडर का हो रहा व्यावसायिक उपयोग

जागरूक टाइम्स संवाददाता कालंद्री। कस्बे में चाय की थडियों से लेकर नाश्ते की लॉरी और रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता देखा जा सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना गैरकानूनी है। जात हो कि सरकारी व्यवस्था के तहत 5 किलो एवं 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए है। जो घरेलू कनेक्शन वाले लोगों को

एक शाम काण्हा के नाम भजन संध्या आयोजित

जागरूक टाइम्स संवाददाता सरूपगंज। काशी विश्वनाथ गोशाला में एक शाम भगवान कृष्ण के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिसमें संचालक लालदास महाराज, प्रियांशी के मुखारविंद से राग गौरी, राग यमन कल्याण, चारु केशी ने भजनों की प्रस्तुतियां दीं। मुरादाबाद के जीव दया प्रेमी नरेश भटनागर, अनुभा अग्रवाल अंगरा, कुमुद जोशी मुंबई, धनदास वैष्णव एवं मंगीलाल कलबी का गोमुख वशिष्ठ आश्रम के महंत संकादिक शरण महाराज एवं श्याम सुंदर महाराज ने सम्मान किया। मंच संचालक लक्ष्मणसिंह गुजराल ने किया गया। मनीष, जगदीश, कल्पेश, अनिलजी सक्सेना, संध्या सक्सेना, राकेश भटनागर, उमेशदत्त सक्सेना, रचना सक्सेना, बिजयकुमार दास, बसंती दास, विमल कुमार शाह, ममता शाह, अभिनव, योगेश भटनागर, कलश शर्मा, वंदना अग्रवाल, दिशिता अग्रवाल, ज्योतिन्द्र शाह सहित सहयोग रहे।



इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति की मांग

जागरूक टाइम्स संवाददाता मंडार। कस्बे के सब डिवीजन में डिस्कॉम कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सरकार द्वारा इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण की मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई। मीटिंग के दौरान इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी बिजली कर्मचारियों को स्थानांतरण में शिथिलता नहीं दी गई है। जिसके कारण हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मीणा ने बताया कि बिजली कर्मचारी निगम को तो बेहतर दे रहे हैं। लेकिन, वहीं स्वयं के परिवार को समय नहीं दे पाने के कारण टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को हजारों परिवारों की भावनाओं को देखने हुए इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति शीघ्र ही लागू करनी चाहिए। सतीश मीणा ने बताया कि इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू होती है तो कर्मचारी अपने गृह

जिले में रहते हुए निगम सेवाओं के साथ साथ अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को भी निभा सकता है। महेश मीणा ने बताया कि इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण के लिए सरकार के विधायकों एवं मंत्रियों द्वारा भी लैटर जारी करके सरकार को अवगत करवाया गया है। ऐसे में इसका समाधान जरूर होना चाहिए। नरसीलाल मीणा, ब्रह्मदेव सोयल, जयसिंह मीणा, तेजराम गुर्जर, राजेश मीणा, दैलत मीणा ने भी अपने विचार रखे। संजय प्रजापत, कानाराम, गणेशराम, मनोहर, दिनेश, हेमराज, रामकेश, प्रहलदा, गिरांज, अंकित, बलवंत, दिनेश गुर्जर, गजानंद, हेमराज बैरवा, यशवंत, नाथसिंह एवं बाबूलाल अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।



मंडार। भटाना में कांग्रेस राज्यसभा सांसद डांगी के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित किए। सरपंच भवानीसिंह भटाना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को फल वितरित कर एवं मामाजी मंदिर में पौधरोपण किया।



विश्व शांति केंद्र से दुनिया में फैलेगा शांति
सदभाव का संदेश : आचार्य लोकेश

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़मेर। बाड़मेर जिले के पंचपदरा क्षेत्र के जन्मे जाए आचार्य लोकेश का संकल्प पूरा होने जा रहा है। उनको पहल पर हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसा संस्थान खड़ा हो रहा है जो सदियों तक युवाओं, समाज को अच्छा संदेश देता रहेगा। संत की पहल के इस विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन दो मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। अहिंसा विश्व भारती के प्रवक्ता एवं समन्वयक के अनुसार अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी से भेंट कर अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नव निर्मित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में शरीक होने आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि गुरुग्राम युवाओं की धरती है। जहाँ से विश्व कल्याण के कार्यक्रम आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में संचालित



देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन दो मार्च को

होंगे। विश्व शांतिदूत आचार्य लोकेश ने बताया कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र व तप रूपी चार स्तंभों पर खड़े सप्त मंजिला भवन का निर्माण अहिंसा विश्व भारती संस्था ने दो वर्ष में पूर्ण किया है। इसके आर्किटेक्ट का दायित्व प्रसन्नराज के नेतृत्व में चैनई की डीशआर्क डिजाइनर कंपनी एवं

निर्माण का दायित्व ओमवीर सिंह के नेतृत्व में एनबी केस्ट्रक्शंस ने निभाया है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति केंद्र से दुनिया में शांति सदभाव का संदेश फैलेगा। इस केंद्र से विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति, भगवान महावीर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, भगवान बुद्ध, गुरु नानकदेव सहित सभी महापुरुषों

के संदेश प्रसारित होंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तन उपदेश से नहीं प्रयोग व प्रशिक्षण से आता है अतः इस केंद्र से अध्यात्म व विज्ञान के समन्वय से तैयार किए गए अहिंसा प्रशिक्षण, शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम, युवाओं के व्यक्तित्व विकास, बच्चों के संस्कार निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ध्यान व योग के प्रायोगिक कार्यक्रम नियमित रूप से चलेंगे। जैनाचार्य लोकेश ने बताया कि इस अवसर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्रीरविशंकर, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव सहित अनेक हस्तियों ने भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की है। इस मौके पर विराट संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा। गुरुग्राम के यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स अशोककुमार ने पिछले दिनों केंद्र का अवलोकन किया एवं आचार्य लोकेश व अहिंसा विश्व भारती के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।

वैलिंग करते वक्त ट्रक में लगी आग

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़मेर। बाड़मेर को जालोर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में वैलिंग करने के दौरान अचानक आग लग गई। इसके बाद हाईवे पर एक तरफ जाम लग गया। सूचना मिलने पर रीको थाणा पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दो फायर ब्रिगेड की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैकेनिक ट्रक के नीचे वैलिंग कर रहा था। आग देखकर लोगों ने मैकेनिक को आगे के बारे में बताकर बाहर निकाला। इससे बड़ा हादसा टल गया। मैकेनिक जुझार सिंह ने बताया- शनिवार सुबह ट्रक के नीचे घुसकर वैलिंग कर रहा था। अचानक ट्रक के इंजन और कैबिन में आग लग गई। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने मुझे आवाज देकर बताया कि ट्रक में आग लग गई। मैं बाहर निकाला। पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। पास में बाहर रहे नाले से पानी गिराना शुरू किया। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। बड़ी संख्या में लोगों का जामवाड़ा हो गया। नगर परिषद व सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।

जैसलमेर में इंजेक्शन लगाते ही बच्ची की मौत

जिला अस्पताल के बाहर तीन साल की मासूम ने तोड़ा दम

जागरूक टाइम्स संवाददाता

जैसलमेर। जैसलमेर के जिला अस्पताल जवाहिर अस्पताल के बाहर एक मेडिकल शॉप पर तीन साल की मासूम बच्ची रबीना की इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का हंगामा कर लिया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल शॉप को बंद करवाया और शोक में बच्ची को रखा कर घर पर बैठे गए। सूचना के बाद शहर कोतवाल सवाई सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया और पोस्टमॉर्टम के लिए राजी किया। बच्ची के परिजनों ने मेडिकल शॉप संचालक, डाक्टर और इंजेक्शन लगाने वाले के खिलाफ शहर कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस मेडिकल बोर्ड से बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर मामले की जांच करेगी।

कंपाउंडर ने लगाया इंजेक्शन

बच्ची के दादा ने बताया कि डाक्टर मेहता ने बच्ची के लिए सर्दी-जुकाम की दवाइयां व इंजेक्शन लगाया। मेडिकल शॉप पर ही बैठे एक कंपाउंडर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया। जैसे ही बच्ची को इंजेक्शन लगाया, उसकी मौत हो गई। बच्ची को लेकर तुरंत मेडिकल वाले परिजनों को साथ लेकर जवाहिर अस्पताल दौड़े। वहां बैठे डाक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।



पोस्टमॉर्टम के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा

शहर कोतवाल सवाई सिंह ने बताया कि परिजनों ने मेडिकल शॉप मालिक, डाक्टर और इंजेक्शन लगाने वाले के खिलाफ शिकायत दी है। हमने मेडिकल बोर्ड से बच्ची का पोस्टमॉर्टम करवाने को लेकर सहमति जताई है और पोस्टमॉर्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

दो दिन से सर्दी-जुकाम

मृतक बच्ची रबीना के दादा इस्माइल खान ने बताया कि रबीना (3) पुत्री गानन खान, निवासी हसन का गांव को दो दिन से सर्दी-जुकाम था। शनिवार को वे इसे दिखाने के लिए गांव से सुबह 10 बजे जैसलमेर आए। यहां अस्पताल परिसर के बाहर शिवम मेडिकल के बाहर बैठे लोगों ने उनको बच्ची के बारे में पूछा और दुकान में ही बच्चों के डाक्टर राजेंद्र मेहता का होना बताया। परिजनों ने बच्ची को मेडिकल शॉप पर ही डाक्टर मेहता को दिखाया। डा. राजेंद्र सिंह मेहता शिपु रंग विशेषज्ञ के तौर पर जवाहिर अस्पताल में लंबे समय से सेवाएं दे रहे थे, साल 2011 से पहले ये रिटायर हो गए। तभी से वे अपने घर पर मरीज देखते हैं। इसके साथ ही वे अस्पताल के पास स्थित शिवम मेडिकल पर भी मरीज देखते हैं। शनिवार को हुए घटनाक्रम में परिजनों ने बताया कि डाक्टर मेहता ने उनको मेडिकल शॉप पर ही देखा और दवाइयां इंजेक्शन लिखे। वहीं मौजूद एक कंपाउंडर ने बच्ची इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई।

कोयले की आड़ में नशीली दवा सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

जागरूक टाइम्स संवाददाता

जोधपुर। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लानर टीम ने ऑपरेशन टटपुनिया के तहत पांच साल से फरार चल रहे 15000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीकानेर जिले के पुलिस थाना नाल में 26 नवंबर 2020 को दर्ज हुए अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के मामले में फरार चल रहा था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया- आरोपी सोनाराम पुत्र गणपत राम बिजोई निवासी ननेऊ पुलिस थाना जांबा को गिरफ्तार किया गया है। साल 2020 में बीकानेर पुलिस ने ट्रक से लाखों रुपए कीमत की नशीली

दवाइयां जप्त की थी। इस मामले में आरोपी पिछले पांच साल से फरार चल रहे हैं।



साइक्लोनर टीम ने ट्रैकर में पानी भरते धरा पढ़ाई छोड़कर ट्रक चलाया था शुरू

रहा था। फरारी के दौरान भी अवैध मादक पदार्थ और दवाइयों की तस्करी करने का अंदेशा है।

पुलिस से बचने अपने घर आना किया कम

पुलिस से बचने के लिए आरोपी फरारी के दौरान बड़े ट्रक ट्रेलर का ड्राइवर बनकर अहमदाबाद, बीकानेर, जोधपुर और अन्य शहरों में जाता था। घर पर आना-जाना भी कम कर दिया था। आरोपी ने अवैध नशीली दवाइयों की सप्लाई पंजाब तक करना शुरू कर दिया था। इसके लिए फंजाबी जिले तक नशीली दवाइयां मंगवा कर अपने ट्रक के माध्यम से पंजाब में भटिंडा शहर में लोकल नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई करता था। टीम को आरोपी के गांव में आने की सूचना मिली थी। टीम ने जांबा में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी पानी का ट्रैकर भर रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया।

सर्दी से राहत, रात का पारा बढ़कर 12.8 डिग्री

जागरूक टाइम्स संवाददाता

बाड़मेर। नए साल के साथ बाड़मेर में सर्दी का असर कम होता जा रहा है। दिन-रात का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री बढ़कर 12.8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री से पार पहुंच रहा है। तेज धूप खिलने के साथ ही गर्म कपड़ों में गर्मी का एहसास हो रहा है। 11 बजने के साथ ही लोग ऊनी कपड़ों को उतार रहे हैं। मौसम विभाग छह जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की संभावना जता रहा है। दरअसल, थार के बाड़मेर में बीते पांच दिनों से रात व दिन के तापमान में तीन डिग्री से ज्यादा बढ़ा है। जहां 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया था। चार जनवरी शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री पहुंच गया है। तीन जनवरी को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री पहुंच गया। इन दिनों में आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही हुई है। दोपहर के समय लोग ऊनी कपड़े पहने से गर्मी का एहसास होने लगा है। शनिवार को सुबह से ही तेज धूप खिल रही है। 11 बजे के बाद भी वस्त्रों में गर्मी का एहसास हो रहा है। धीरे दोपहर के समय लोगों ने गर्म वस्त्र उतार रहे हैं। लेकिन शाम के बाद



पांच दिन में तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी, दिन में गर्मी

बदला मौसम, दिन में तेज धूप खिली

जोधपुर। जोधपुर में शनिवार को धूप छाप रहने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई। जोधपुर का मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। आम दिनों में जहां ठंड की वजह से लोग परेशान नजर आते हैं। वहीं दिन में तीखी धूप से राहत मिली। बता दे कि शहर में पिछले सप्ताह दिन के समय भी तापमान में गिरावट थी। अब दोपहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया। पिछले दो-तीन दिनों में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। शहर में शनिवार को दिन में धूप छाप रहने की वजह से लोगों को राहत मिली है। रात के समय भी आठ से 10 डिग्री से बढ़कर 15 से 16 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि जोधपुर में हवा की क्वालिटी काफी खराब नजर आई प्रदूषण अधिक होने की वजह से भी एयर क्वालिटी



इंडेक्स स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं माना गया। मौसम विभाग के अनुसार- छह से सात जनवरी को प्रदेश में मौसम ड्राई रहने और सात जनवरी से उतरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम अधिकतम तापमान में गिरावट बढ़ने की संभावना है। विभाग की ओर से शनिवार को मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना जताई गई थी।

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाइवे पर हादसा, युवती की मौत

जागरूक टाइम्स संवाददाता

उदयपुर। उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर शनिवार को एक और हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लेते हुए मिनी ट्रैक्टर बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार एक लड़की की मौत हो गई। मिनी बस में फंसे यात्रियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसा गोमुंदा के पास खोखरिया नाल का है। बेकरिया एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया- उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहे ट्रेलर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर बस से टकरा गया। गनीमत रही कि बाइक सवार बच गया। ड्राइवर ने सवारों को उट्टी होने पर बस को रोका था। इस दौरान पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार दौसा निवासी 22 साल की प्रांजल की मौत हो गई। ये बस सवार सप्ती उदयपुर से मार्डट आबू जा रहे थे। बेकरिया थाना पुलिस, हाईवे टीम और 108 टीम भी मौके पर पहुंची। उदयपुर गोमुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी हाइवे पर मालवा का चौरा पुलिस के पास शक्रवार दोपहर भी हादसा हुआ जिसमें पांच जनों की मौत हो गई।



तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक को टक्कर मारकर बस से टकराया, बस में फंसे यात्री

राह चलते युवक को बस ने मारी टक्कर, जोधपुर रेफर

बाड़मेर। बाड़मेर में राहगीर को एमपीटी जा रही बस ने टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। घटना शनिवार को बाड़मेर जिले के नागाणा थाना इलाके एमपीटी रोड पर हुई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ठेकेदार से बातचीत कर सहमति बनी। घायल युवक को बाड़मेर अस्पताल भेजा गया। वहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बस को जप्त कर लिया। नागाणा थानाधिकारी जमीन खान ने बताया- शनिवार सुबह मुझे की टाणी निवासी खेताराम पुत्र मजनाराम जीरो पांडे की तरफ जा रहा था। इस दौरान वहां से निकल रही बस ने ओवरटेक करते हुए खेताराम को पीछे से टक्कर मार दी। इससे खेताराम गंभीर रूप से घायल हो गया।

त्यापार जगत
सोमवार को फोकस में रहेंगे
सुजलॉन एनर्जी के शेयर

मुंबई। सोमवार को सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह कंपनी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नॉटिस है। कंपनी ने को अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.01 करोड़ रुपए का नॉटिस भेजा है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि यह डिमांड वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पीएफ/ईएसआई में कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन में देरी से भुगतान से जुड़ा मामला है। सुजलॉन एनर्जी से नॉटिस के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है।



कंपनी को 260 करोड़ रुपए का फायदा

इससे पहले सुजलॉन एनर्जी ने बताया था कि वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए लगाए गए 260.35 करोड़ रुपए को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माफ कर दिया। डिपार्टमेंट ने यह फैसला आईटीएटी के निर्णय के बाद लिया।

दो टुकड़ों में शेयर बांट रही कंपनी

रिकॉर्ड डेट का ऐलान, प्रमोटर के पास बड़ी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी- ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के निदेशक मंडल ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है। कंपनी ने पात्र शेयरधारकों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए 20 जनवरी को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। दो टुकड़ों में बंटेगा शेयर स्मॉल-कैप कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बोर्ड ने 1:2 अनुपात में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि दो फेस वैल्यू वाले मल्टीबैर स्मॉल-कैप शेयर के एक इक्विटी शेयर को दो कंपनी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। मतलब ये कि कंपनी एक शेयर को दो टुकड़ों में बांट रही है। आमतौर पर कंपनियां शेयर को स्प्लिट कर निवेशकों को अट्रैक्ट करती हैं। इस कदम के बाद सस्ती कीमत में शेयर खरीद सकते हैं।

शेयर की कीमत ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 0.97% टूटकर 96.08 रुपए पर आ गया है। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 95.35 रुपए के निचले स्तर पर आ गया। 20 मार्च 2024 को शेयर 46.08 रुपए के निचले स्तर पर था। जुलाई 2024 में इस शेयर की कीमत 261 रुपए के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 1.74 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 98.26 फीसदी की है। यह स्मॉल-कैप शेयर भारतीय शेयर बाजार द्वारा कोविड के बाद की रैली में दिए गए मल्टीबैर में से एक है। हालांकि, पिछले छह महीनों में मल्टीबैर स्टॉक बेस-बिल्डिंग मोड में रहा है। एक साल में इस स्मॉल-कैप शेयर ने अपने निवेशकों को 60 फीसदी से अधिक रिटर्न दिया है।

शुक्रवार का बाजार का हाल

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक संसेक्स सकारात्मक शुरुआत के बावजूद 720.60 अंक यानी 0.90 प्रतिशत गिरकर 79,223.11 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 833.98 अंक गिरकर 79,109.73 पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निपटी भी 183.90 अंक यानी 0.76 प्रतिशत गिरकर 24,004.75 पर बंद हुआ।

आपका राशिफल 5 जनवरी

सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण तिथि के बाद दिन-पर उसाह रहेगा। किसी लाभदायक कार्य के लिए व्यवसायिक इच्छितियां पैदा होंगी। अल्प-परिश्रम से ही लाभ होगा। कामकाज में आ हाद अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। धैर्य, बहुमूल्य वस्तुओं के क्रय का योग है। शुभंक्र-1-5-7
परमार्थ व परिस्थिति सभी का सहयोग मिलेगा। आर्थिकी वार्ड से आपका निकटता बढ़ेगी। व्यवसायिक उद्यम में उदरगति की शुरुआत हो सकती है। स्वार्थ सम्पत्ति के निर्माण, मरम्मत व पुनर्व्यवस्था पर व्यय भार बढ़ेगा। किसी की टोका-टिप्पणी से आपकी परेशानी हो सकती है। शुभंक्र-2-5-6
विश्वस्त्र लोगों के कंठे अनुसर चलें। राजकीय कार्यों में सतर्कता बरतें। मान-सम्मान को ठेस लग सकती है। जोश से काम व होश में रहकर कार्य करें। नये आगुत्तों से लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। परिवार के साथ मनोरंजनिक स्थल की यात्रा होगी। शुभंक्र-5-7-9
पुनर्नी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। परिवार प्रयास से कार्य सफल होगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें। नौकरी में साधनापूर्वक कार्य करें। अपनी का सहयोग मिलेगा। पत्नी व संतान पक्ष से कोई विता रहेगी। मनोरथ सिद्धि का योग है। शुभंक्र-1-3-6
दाम्पत्य जीवन में तनाव का वातावरण बन सकता है। शारीरिक सुख के लिए व्यसन को त्याग करें। आत्मचिंतन करें। पुनर्निर्माण से मिशन होगा। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर होगी। खान-पान में सावधानी रखें। अपने अधीनस्थ लोगों से कम सहयोग मिलेगा। धनप्राप्त में विशेष होने की संभावना है। शुभंक्र-5-7-9
रुका हुआ पैसा बचत में मदद मिलेगा। व्यर्थ प्रबंध में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अच्छे कार्य के लिए रूठे बना लें। अपने हित के काम सुझाएं-यहसे निपट लें। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सफलता से संभव हो जायेंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। शुभंक्र-3-5-7
संतान की ओर से हर्ष के प्रसंग होंगे। समय को देखकर कार्य करना ज्यादा हितकर होगा। परिवार अधिकतम पैसा तभी आप लाभ की आशा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। आलस्य का त्याग करें। पुरुषार्थ का सहारा लें। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। शुभंक्र-4-6-7
कर्म बल पर आपकी सफलता मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता को बढ़ाएंगे उपक्रम का विस्तार करने का प्रयास सफल होगा। आप अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। वृद्धि कोशल से चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से समय उपलब्धिकारक रहेगा। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। शुभंक्र-4-6-8
वृश्चिक राशि में शुभंक्र का प्रभाव बढ़ेगा। मानसिक स्थिति सुधरेगी। कामकाज सामंति तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य कमजोर बना रहेगा। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। श्रम अधिक करना पड़ सकता है। बचतियों से मतभेद उत्पन्न करके हैं। शुभंक्र-3-5-7
शनि-शनि: स्थिति पक्ष को बचने लगेगी। मेहनत-मिलान से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का इतराभी परिणाम मिल जाएगा। आशा और उत्साह के कारण सकारिता बढ़ेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रभव होंगी। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रभव होंगी। पारिवारिक प्रेमभाव बढ़ेगा। शुभंक्र-2-4-6
शुक्र राशि में शुभंक्र का प्रभाव बढ़ेगा। विकास के लिए बनाई योजना सफल होगी। अच्छा हो कि आप अपने उद्योग को लेकर सचेत रहें। प्रियजनों से सम्मान का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं जो कि अतिव्यवसायीक व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। कार्य साफल्य दिन है व्यर्थ न गंवाएं। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभंक्र-5-7-9
धनु राशि में शुभंक्र का प्रभाव बढ़ेगा। शनि-शनि: स्थिति पक्ष को बचने लगेगी। मेहनत-मिलान से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का इतराभी परिणाम मिल जाएगा। आशा और उत्साह के कारण सकारिता बढ़ेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रभव होंगी। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रभव होंगी। पारिवारिक प्रेमभाव बढ़ेगा। शुभंक्र-2-4-6
कुंभ राशि में शुभंक्र का प्रभाव बढ़ेगा। विकास के लिए बनाई योजना सफल होगी। अच्छा हो कि आप अपने उद्योग को लेकर सचेत रहें। प्रियजनों से सम्मान का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं जो कि अतिव्यवसायीक व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। कार्य साफल्य दिन है व्यर्थ न गंवाएं। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभंक्र-5-7-9
मकर राशि में शुभंक्र का प्रभाव बढ़ेगा। विकास के लिए बनाई योजना सफल होगी। अच्छा हो कि आप अपने उद्योग को लेकर सचेत रहें। प्रियजनों से सम्मान का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं जो कि अतिव्यवसायीक व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। कार्य साफल्य दिन है व्यर्थ न गंवाएं। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभंक्र-5-7-9

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को मिला 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से मंगाई गई बोलियां सफल कंपनी बनकर उभरी है। तीन जनवरी को यूपीपीसीएल की तरफ से टेंडर आधारित 2000 मेगावाट आईएसटीएस कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां आयोजित की गई थीं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को 1000 मेगावाट की क्षमता का काम मिला है। जो तक 2.56 128.35 रुपए के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से तोय हुआ है। एक महीने के दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अमी यूपीपीसीएल की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड श्रेयों का भाव करीब 10 प्रतिशत टूटा है।

का इंतजार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते 27 दिसंबर को एनटीपीसी लिमिटेड ने बताया था कि 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के पहले पार्ट से संचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें, यह प्रोजेक्ट भी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के पास ही है। एनटीपीसी ग्रुप ने अबतक 76,598.18 मेगावाट की क्षमता की है। शेयर बाजार में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं शुरुवार को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर बीएसई में 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 128.35 रुपए के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भाव करीब 10 प्रतिशत टूटा है।

कोटक, एयू स्मॉल, कैपिटल-स्मॉल बैंक में निवेश करेगा एचडीएफसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की मंजूरी दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी के तहत एचडीएफसी बैंक ने बताया कि ग्रुप की कंपनियों जैसे एचडीएफसी एचयूएल फंड, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी ईआरजीआ जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और प्रमोटर व स्पॉन्सर को इन बैंक की टोटल 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है।

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 0.079% की गिरावट


बीते दिन कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 0.079% की गिरावट रही, यह 1,835.70 पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर ने 4.45% का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक भी शेयर में केवल 3.25% की तेजी देखने को मिली है।

बीते दिन एचडीएफसी बैंक में 2.53% की गिरावट

बीते दिन एचडीएफसी बैंक के शेयर में 2.53% की गिरावट रही, यह 1,748.40 पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर ने 6.01% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक भी इसके शेयर में 1.30% की गिरावट देखने को मिला है। जबकि, पिछले छह महीने में एचडीएफसी बैंक ने केवल 1.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

Advertisement for HDFC Bank, featuring the bank's logo and text about its services and performance.

जवाई बांध में भद्रेश्वर महादेव मंदिर का गुंबद अभी भी आधा जलमग्न



11वीं सदी में बना था यह मंदिर

फोटो : लक्ष्मण पारंगी

जगरूक टाइम्स संवाददाता
सुमेरपुर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध रियासतकाल के साथ धर्म संस्कृति से भी जुड़ा है। जवाई के कैचमेंट में दूदनी गांव के पास 11वीं सदी में बना भद्रेश्वर महादेव मंदिर लगातार कई सालों से मिट्टी में समा रहा है। प्रतिवर्ष बारिश के पानी के साथ आ रही मिट्टी से हर साल आधा इंच तक यह मंदिर

भूमि में समा रहा है। दूसरी पाण का पानी दिया जा चुका है। मंदिर का गुंबद अभी भी आधा जलमग्न है। बताया जाता है कि यहां पर 11वीं सदी में पांडवों ने मुंडन किया था। मंदिर आधा जलमग्न होने पर जवाई का गेज 52 फीट तक बना रहता है। जवाई का गेज व पूरा जलमग्न होने पर 61 फीट है। लोग मंदिर के आधार पर ऐसे ही जवाई के गेज का अनुमान लगाते हैं।

डायलाना बी ने जीता उदघाटन मैच



जागरूक टाइम्स संवाददाता
देसूरी। टाइगर क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में डायलाना खुर्द में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उदघाटन समारोह में बतौर अतिथि ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हेमंत गाड़ना, सरपंच राजाराम सिरवी, शिक्षाविद टेकाराम, सुरेश भाटी, रवि प्रकाश, वार्ड पंच चंपालाल राठी, पीराराम देवासी, वीरमराम राठी, रमेशकुमार, श्रवणकुमार, महेंद्रसिंह, प्रवीणकुमार, दीपेंद्रसिंह, सुगनराम व मुकेशकुमार ने शिरकत की। उदघाटन मैच

जिजीवड़ और डायलाना बी के बीच खेला गया। जिसमें डायलाना बी ने जीत हासिल की। वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और समाज में खेल भावना व एकता को बढ़ावा देना है। अतिथियों ने आयोजन की सराहना की। आयोजक महेंद्र राठी और हिमंत रमैया के अनुसार यह टूर्नामेंट स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ खेल के महत्व को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है।

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ



जागरूक टाइम्स संवाददाता
फालना। फालना गांव के आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत सरपंच करणसिंह राजपुरोहित ने बालकों को अपने हाथों से दूध पिलाकर शुभारंभ किया। योजना के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में तीन दिन रिकमड मिल्क पाउडर से दूध

बनाकर पिलाया जाएगा। दूध को पौष्टिक आहार के रूप में सेवन करने से बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा मालवीय, दक्षकंवर राजपुरोहित, सहयोगिनी सविता मेघवाल, ग्रामीण गोवर्धनसिंह सोलंकी, मालाराम चौधरी, रघुनाथराम मेघवाल, मोटाराम चौधरी सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

अंधजन क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में शरीक होंगे मेवाड़ा

जागरूक टाइम्स संवाददाता
सुमेरपुर। उत्तर गुजरात दिव्यांग कल्याण संघ विसनगर संस्था द्वारा आयोजित महात्मा लुइस ब्रेल प्रज्ञाचक्षु (अंधजनों) के दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा। उत्तर गुजरात संस्था के अध्यक्ष दहयाभाई आई. पटेल, प्रबंध ट्रस्टी अशोक भाई के. पटेल एवं मानद मंत्री सुरेखाबेन एस. पटेल ने बताया कि 4 जनवरी को महात्मा लुइस ब्रेल की 200वीं जयंती पर प्रज्ञाचक्षु (अंधजनों) दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिसमें पूरे गुजरात से 64 प्रज्ञाचक्षु (अंधजनों) की फीट की चार टीमों बनाई गई। जिसका समापन समारोह रविवार को रखा गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नवभारत सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ डिसेबल फीट एसोसिएशन इंडिया के चैयरमैन, तारा संस्थान उदयपुर के पाली एवं सिरोही जिलाध्यक्ष एवं रेड'स सोसायटी के चार्टर अध्यक्ष पंकजराज मेवाड़ा सुमेरपुर, गुजरात सरकार के मंत्री तारकभाई, विशिष्ट अतिथि मानंद मंत्री गांधीनगर जयंतीभाई बी. पटेल, प्रो एमएन कॉलेज राजेशभाई जे.पटेल, पूर्व खेल निदेशक अंधजन मंडल अहमदाबाद गणतभाई पटेल भाग लेंगे।



चाइनीज मांझे से कटा युवक का गला

जागरूक टाइम्स संवाददाता
पाली। शहर में इन दिनों पतंगबाजी का खुमार चढ़ता जा रहा है। प्रशासन के लाख प्रयासों व समझाइश के बाद भी अधिकतर पतंग की दुकानों पर अवैध रूप से चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है। लोग प्रशासन के प्रयासों को नाकाफी करार दे रहे हैं। सख्त कार्रवाई के अभाव में अभी भी यह घातक मांझा बिक रहा है एवं लोग धड़ल्ले से इसका उपयोग कर रहे हैं। इसकी घातकता के चलते कई हादसे हो चुके हैं। शनिवार को भी ऐसे ही हादसे में बाइक पर जा रहे युवक का गला कट जाने से जान पर बन आई। शिवाजी नगर निवासी मुकेश जैन अपनी बाइक पर ब्रिज के निकट से गुजर रहा था तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। युवक के गले पर गहरा कट लग गया। धागे को हटाने का प्रयास किया तो हाथ भी जख्मी हो गया। इसी के साथ वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने उसे बांगड अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने युवक के गले पर टांके लगा उपचार किया।

अमृता हाट : जमकर हुई खरीददारी, 8 जनवरी तक जारी रहेगा हाट बाजार



जागरूक टाइम्स संवाददाता
पाली। शहर में चल रहे अमृता हाट बाजार में दूसरे दिन भारी तादाद में लोगों ने शिरकत कर जमकर खरीददारी की। यह हाट बाजार 8 जनवरी चलेगा। हाट बाजार में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की 80 स्टॉल लगाई गई है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक भगीरथ चौधरी ने बताया कि जिले भर से काफी संख्या में लोग पहुंचे व जमकर खरीददारी की। प्रथम दिन

विभिन्न स्टालों से लगभग एक लाख रुपये तक की खरीददारी हुई। मेले के दूसरे दिन प्रथम दिन की अपेक्षा अधिक खरीददारी हुई व मेले में चहल पहल रही। दूसरे दिन 2 लाख 56 हजार रुपये की खरीददारी हुई। पुलिस विभाग द्वारा कालिका पेट्रोलिंग द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की 80 स्टॉल लगाई गई है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक भगीरथ चौधरी ने बताया कि जिले भर से काफी संख्या में लोग पहुंचे व जमकर खरीददारी की। प्रथम दिन

सेवाओं हेतु राजकोप सिटीजन एप डाउनलोड करवाकर इस संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस मेले में प्रतिदिन आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के 'म' में आज मेलाप्रार्थियों के लिए क्रिज प्रतियोगिता का आयोजित किया गया एवं कल 4 जनवरी को मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मंच संचालन मांगीलाल तंवर विधिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपनिदेशक चौधरी ने पाली के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की कि वे हाट आयोजन की अवधि के दौरान मेले में पधारकर महिलाओं को प्रेरित करावें तथा उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों का 'य' कर उनका मनोबल व उत्साह बढ़ाएं। अमृता हाट मेला प्रतिदिन प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक राजकीय बांगड उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान पाली में संचालित हो रहा है।

सड़क सुरक्षा माह, हेलमेट व सीट बेल्ट का बताया महत्व



जागरूक टाइम्स संवाददाता
पाली। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत प्रशासन, पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलवक्त समझाइश की जा रही है लेकिन जल्द ही लोगों को चालान के साथ भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर वाहन चालकों और आमजन को यातायात पुलिस की

ओर से जागरूक किया गया। यातायात पुलिस प्रभारी सरिता विश्वादी ने लोगों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट चलाते समय सटीक चलाने, वाहन संचालन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, गति सीमा का ध्यान रखने जैसी बातों से अवगत कराया। कई वाहनों पर रिप्लेक्टर लगाए गए।

सिरोही के कार्तिकेय शर्मा करेंगे राज्य युवा महोत्सव में संभाग का प्रतिनिधित्व

भाषण प्रतियोगिता में करेंगे शिरकत

जागरूक टाइम्स संवाददाता
पाली। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भाषण प्रतियोगिता में सिरोही के युवा वक्ता एवं कवि कार्तिकेय शर्मा करेंगे संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता 8 व 9 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। पाली के राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में कार्तिकेय शर्मा ने आजादी के अमृत काल पर आधारित पंच प्रण पर भाषण देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब राज्य स्तर पर भाग लेंगे। इससे पूर्व भी वे 4 बार राज्य सरकार द्वारा आयोजित युवा महोत्सव में विजेता बन कर राजस्थान युवा कल रत्न एवं 3 बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर भारत युवा कला रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। कार्तिकेय इस बार 5वीं बार सिरोही को खिताब दिलाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। कार्तिकेय बचपन से ही कविता, वाद विवाद, भाषण, आशुभाषण, निबंध लेखन आदि साहित्यिक



गतिविधियों में रुचि रखते हैं और वर्तमान में देशभर में उम्दा मंच संचालन के लिए भी जाने जाते हैं। इस उपलब्धि पर पाली विधायक

भीमराज भाटी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारेख, सीडीओ सीपी जसवाल, डीडीओ राहुलकुमार राजपुरोहित आदि ने सम्मानित किया।

मादा के ग्राविअ को पंचायत समिति रोहट लगाने के निर्देश

जागरूक टाइम्स संवाददाता
देसूरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग अतिरिक्त आयुक्त व संयुक्त शासन सचिव प्रथम बृजेशकुमार चंदोलिया ने देसूरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मादा के ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति रोहट में नियुक्त करने

एवं डायलाना कला के ग्राम विकास अधिकारी कालूराम मेघवाल को ग्राम पंचायत दादाई का अतिरिक्त चार्ज देने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को आदेश जारी कर तत्काल पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

श्रीयादे मंदिर कार्यकारिणी के नाथाराम फिर बने अध्यक्ष

जागरूक टाइम्स संवाददाता
सादड़ी। कस्बे में आना मेवाड़िया चौताला श्रीयादे मंदिर सादड़ी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नाथाराम गुड्डा जाटान को फिर से अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर पुखराज आना, केसराम घाणेरव, कालूराम चारभुजा, कातिलाल देसूरी प्रवासी मंडल, कोषाध्यक्ष मोहन कपूरक, सह कोषाध्यक्ष मनाराम हल्कीया देसूरी, सचिव कपूरचंद जलवानिया, सह सचिव उकराम उदरथल, संगठन मंत्री रमेश प्रजापत पार्षद, मीडिया प्रभारी कृष्णकुमार कवाड़िया, महामंत्री फूलचंद कपूरक, मार्गदर्शक के रूप में रताराम, धनाराम, जीवाराम, कीकाराम, मोहनराम, अचलाराम को नियुक्त किया गया।

सभी पदाधिकारियों का समाज की ओर से स्वागत किया गया। बैठक में श्रीयादे माता मेले की समस्त व्यवस्थाओं पर चर्चा कर भव्य रूप से आयोजन करवाने का निर्णय किया गया। पदाधिकारियों एवं प्रवासी मंडल मुंबई के अध्यक्ष ओगडराम मोरवाल घाणेरव, भंवरलाल वरदान, पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल का श्रीयादे प्रजापति युवा संगठन के व्यवस्थापक प्रवीण कवाड़िया, अध्यक्ष रमेश प्रजापत पार्षद, उपाध्यक्ष छान लुणिया, सचिव नारायणलाल, कोषाध्यक्ष रमेश कपूरक, संगठन के मार्गदर्शक मांगीलाल लुणिया, जगदीश नगरीय सेवा, मांगीलाल एन.प्रमोद लुणिया, गोपालराम, दिनेशकुमार, चैनाराम, मुकेशकुमार, प्रकाशकुमार, मदनलाल की ओर से स्वागत किया गया।



नव नियुक्त डीआरयूसीसी सदस्य का किया सम्मान

जागरूक टाइम्स संवाददाता
सुमेरपुर। सुमेरपुर रेल विकास सेवा संस्थान के सदस्य एवं अजमेर रेलवे मंडल द्वारा मनोनीत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य श्याम अग्रवाल का अग्रवाल समाज भवन सुमेरपुर में आयोजित समारोह में सुमेरपुर रेल विकास सेवा संस्थान एवं अग्रवाल समाज सुमेरपुर द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। रेलवे संस्थान सचिव अशोक आर गहलोत ने बताया कि डीआरयूसीसी सदस्य श्याम अग्रवाल का संस्थान एवं समाज के प्रमुखजनों ने साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। रेलवे सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शाह ने जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी का इसके लिए आभार प्रकट किया। डीआरयूसीसी सदस्य



अग्रवाल ने बताया कि जवाई बांध स्टेशन पर द्रुतगामी ट्रेनों के ठहराव एवं स्टेशन की अन्य प्रमुख समस्या को लेकर अजमेर मंडल प्रबंधक से चर्चा कर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने रेल विकास समिति एवं समाज बन्धुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष पोपटलाल जैन, उपाध्यक्ष रमेश राठी, अनिल शाह,

कोषाध्यक्ष राजेश जोशी, अग्रवाल समाज के सचिव विकास एमके अग्रवाल, उमेश गौयल, श्रवण अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, सुरेश सिंहल, सह सचिव गिरीश शर्मा, कैलाश सेन, जोधराज देवड़ा, प्रकाश कुमावत, श्रवण राठी, फौजमल गहलोत, विजय वैष्णव, गोविन्द राठी, लालचंद अग्रवाल, ओमप्रकाश कुमावत, नेनमल सोनी, शांतिलाल परमार आदि मौजूद रहे।

अस्पताल की समस्याओं को लेकर बैठक आज

जागरूक टाइम्स संवाददाता
बाली। बाली जिला अस्पताल को लेकर क्रांति मंच के तत्वावधान में रविवार को दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में अपराह्न चार बजे बैठक आयोजित की जाएगी। 'क्रांति मंच के संयोजक प्रवीण प्रजापति ने बताया कि बाली के जिला अस्पताल घोषित होने के बावजूद भी इसमें विकास की बहुत कमी है। आज भी इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ब्लड बैंक सहित विभिन्न सुविधाओं का अभाव है। आज भी यहां से 95 प्रतिशत कैस रेफर किए जाते हैं। शाम के बाद डिलीवरी के बहुत कम कैस लिए जाते हैं। इन सभी गंभीर विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, समस्त व्यापार मंडल, विभिन्न संगठन, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर समाज, किसान सहित नगर में प्रबुद्धजन व नागरिकों को भाग लेने आमंत्रित किया गया है।

ज्ञापन सौंप झाक के ग्रामीणों ने की अलग पंचायत बनाने की मांग

जागरूक टाइम्स संवाददाता रामसीन। निकटवर्ती ग्राम झाक के ग्रामीणों ने पंचायतराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी को ज्ञापन देकर ग्राम झाक को अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि झाक और रतपुरा गांव ग्राम पंचायत पुनककला के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत पुनककला में कुल चार गांव आते हैं जिसमें सबसे बड़ा गांव आबादी के हिसाब से झाक ही है। परंतु राजनीतिक पहुंच की कमजोरी के कारण पंचायत मुख्यालय झाक की जगह पुनककला हो गया। उसी का परिणाम यह रहा कि ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद अभी तक विकास से कोसों दूर है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद न तो पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था है ना चिकित्सा व शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। पंचायत की अनदेखी के कारण यह गांव पंचायत मुख्यालय से पक्की सड़क से भी नहीं जुड़ पाया है। जिसके कारण लोगों को करीब 15 किलोमीटर घूमकर रामसीन होते हुए पंचायत जाना पड़ता है। जिससे आम लोगों के समय और धन का व्यर्थ अपव्यय हो रहा है। गांव में इक्का दुकाना गलियों व आम रास्तों को छोड़ कर कहीं पर भी सीसी रोड नहीं है। नालियां नहीं होने से आम रास्ते पर गंदगी पसरी रहती है। गांव में आठवीं तक ही विद्यालय है। यहां के बच्चे आवागमन के साधनों के अभाव के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनकी पढ़ाई अधूरी रह पाती है। गांव में स्वास्थ्य



सुविधाओं का भी नितांत अभाव है। ग्राम झाक विधानसभा भीनमाल के अंतर्गत आता है। गांव में कुल 2166 वोटर है यद्यपि 2011 से जनगणना नहीं हुई है। परंतु वोटर की संख्या देखते हुए गांव की कुल आबादी 5000 से ज्यादा है। वहीं झाक से रतपुरा गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें भी कुल वोटर 845 है और उसकी जनसंख्या भी 2000 से अधिक है। यानी दोनों गांवों में कुल वोटर 3000

से ज्यादा और जनसंख्या 7000 से अधिक अनुमानित है। ग्रामीणों ने दोनों गांवों के हितों को ध्यान में रखते हुए गांव झाक और रतपुरा को मिलाकर झाक को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग में भेजने की मांग की। ताकि दोनों गांवों का समुचित विकास हो। इस दौरान उपसर्पंच पुनककला किरतसिंह जोधा, मालाराम चौधरी, त्रिकमाराम चौधरी, खेतसिंह जोधा, कालूसिंह जोधा आदि ग्रामीण उपस्थित थे।

राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की बैठक कल भीनमाल में

जागरूक टाइम्स संवाददाता रामसीन। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा जालोर कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को भीनमाल में आयोजित की जाएगी। जिलामंत्री जसराज विरास ने बताया कि प्रदेश, जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों व मंत्रियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी करेंगे। बैठक राउप्राव कचहरी रोड भीनमाल में दोपहर 11.30 बजे होगी। बैठक में जालोर जिले के प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी, प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन के संयोजक व सह संयोजक एवं संगठन से जुड़े शिक्षक भागीदारी करेंगे। बैठक में प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन पर विचार विमर्श किया जाएगा।

गर्ग समाज का सम्मान समारोह आज

जागरूक टाइम्स संवाददाता जालोर। शहर स्थित गर्ग आश्रम शिव मंदिर में शनिवार को गर्ग समाज के वरिष्ठ लोगों की बैठक में रविवार को समाज के नव चयनित कर्मचारी एवं पदेन कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय किया। गर्ग समाज जालोर जिलाध्यक्ष हड़मताराम गर्ग साफाड़ ने बताया कि गर्ग आश्रम शिव मंदिर जालोर में होने वाले कार्य में नव चयनित नर्सिंग कर्मियों, नव चयनित शिक्षकों एवं पदेन कर्मचारियों के सम्मान तथा जालोर नगर व जालोर ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव हो लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में जालोर ब्लॉक, जालोर नगर एवं समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी, जिला प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि, संस्रक्ष मंडल सदस्य एवं समस्त समाज समर्पित कर्मठ, निष्ठावान सेवाभावो कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष हड़मताराम गर्ग ने बताया कि आयोजन राजस्थान सरकार के मुख्य सचिवके जोगेश्वर गर्ग के आतिथ्य में होगा।

परिसीमांकन को लेकर जागरूक रहना जरूरी : पाराशर



जागरूक टाइम्स संवाददाता जालोर। नगर कांग्रेस कमेटी एवं मंडल कांग्रेस की संयुक्त बैठक जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल के विशिष्ट आतिथ्य एवं नगर अध्यक्ष मुमताज अली व मंडल अध्यक्ष रमेश सोलंकी के आतिथ्य में राजीव गांधी भवन जालोर में आयोजित की गई। जिला प्रवक्ता योगेंद्रसिंह कुम्पावत ने बताया कि बैठक में जालोर नगर परिषद क्षेत्र में किए जा रहे परिसीमांकन के प्रस्ताव एवं वार्डों के सीमांकन गठन के दावे आपत्ति को लेकर चर्चा कर कमेटी का गठन किया गया। पाराशर ने कहा कि शहर के समस्त कांग्रेसजन को जागरूकता के साथ परिसीमांकन परिपत्र को पढ़कर संबंधित वार्ड के गठन, परिसीमांकन को ध्यान में रखते हुए दावे आपत्ति होने पर अपनी आपत्ति समय अनुसार दर्ज करवानी चाहिए। जिसने नियमानुसार वार्ड का गठन हो सके। उन्होंने शहर के कांग्रेसजन से राज्य की भाजपा सरकार की एक वर्ष की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जालोर शहर हेतु किए गए ऐतिहासिक कार्यों का प्रचार करने की बात कही। अंत में समस्त कांग्रेसजन ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाजिम अली के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर प्रदेश महासचिव नैनसिंह राजपुरोहित, सुरेश चौधरी आहोर, जिला उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो, जिला प्रवक्ता योगेंद्रसिंह कुम्पावत, ब्लॉक अध्यक्ष भोमाराम मेघवाल, कैलाश शर्मा, ममता जैन, चतराराम सुथार, लक्ष्मणसिंह सांखला, मिश्रीमल गहलोत, जालनसिंह चारण, फूसाराम माली, सुरेश मेघवाल, अनिल पंडत, जुबैदा नागोरी, सुष्मिता गर्ग, अफरोजा बानो, शीला चौधरी, गौतादेवी, उमदेसिंह चारण, तरुण सोलंकी, हीराचंद भंडारी, जोगाराम सरगरा, नवीन मेवाड़ा, कपूराराम परिहार, वाहिद मेहर, छगन आर्य, संभलाराम माली, नवीन सुथार, ओमप्रकाश चौधरी, सुरेश सोलंकी, शकूर खान, नारायण राणा, मसराम मीणा, धुखाराम सरगरा, किशन सुदेशा, बाबूसिंह राजपुरोहित, इरफान खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

राष्ट्र सेविका समिति के शिक्षा वर्ग का समापन



जागरूक टाइम्स संवाददाता भीनमाल। आदर्श विद्या मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित राष्ट्र सेविका समिति के सात दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का समापन शनिवार को श्रीमती अलिता अग्रवाल, डा अरुनी पटेल, वर्गाधिकारी श्रीमती ललिता गहलोत, जोधपुर प्रोत शारीरिक प्रमुख सुश्री मोनिका माहेश्वरी, वर्ग कार्यवाहिका उर्मिला खण्डेलवाल, भीनमाल जिला सम्पर्क प्रमुख मीरा देवासी व जालोर विभाग विस्तारिका वणिका की मौजूदगी में हुआ। डॉ पटेल ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति शिक्षा का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है। ऐसे वर्गों से बहनों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, नेतृत्व क्षमता व कर्तव्य बोध के गुण विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि मातृत्व अपने स्व गुणों को पहचान कर निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। कार्य 'म' में शिक्षार्थियों द्वारा वर्ग में निरखाए गए दंड, नियुद्ध, यष्टि, योगचाप व योगासन आदि का प्रात्यक्षिक के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। वर्गाधिकारी ललिता गहलोत ने बताया कि 29 दिसम्बर से 4 जनवरी 2025 तक आयोजित सात दिवसीय प्रारंभिक वर्ग का सफल आयोजन हुआ। इस वर्ग में जालोर विभाग के तीन जिलों के सोलह खण्डों से शिक्षार्थी, प्रबंधिका, शिक्षिकाएं व अधिकारी सहित 167 की संख्या रही।

सवरे साढ़े पांच से रात्रि दस बजे तक की कठिन दिनचर्या और अनुशासन का पालन करते हुए इन दिनों में चिन्तन सूत्र, योगासन, प्रातः शाखा, लेखन कार्य, बौद्धिक, बिन्दु संकलन, आचर पद्धति, चर्चा कार्यशाला, भजन गीत अभ्यास व आनन्दवेला आदि में भाग लेकर आत्म निर्माण किया गया। जोधपुर प्रांत शारीरिक प्रमुख माहेश्वरी ने बौद्धिक वक्ता की भूमिका में सदगुण निर्मित का केन्द्र शाखा विषय पर उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया

कि राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं का अखिल भारतीय संगठन है। इस संगठन में कार्यकर्ता का विशेष महत्व है। कार्यकर्ता निर्माण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग लाए जाते हैं। इस प्रारंभिक वर्ग के माध्यम से बहनों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास करते हुए समिति के प्रति विश्वास व आभिनयता के भाव का निर्माण किया जाता है। भीनमाल जिला कार्यवाहिका उर्मिला खंडेलवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

रोवाड़ा के ग्रामीणों ने लगाया निर्दोषों के साथ मारपीट का आरोप, की निष्पक्ष जांच की मांग

जागरूक टाइम्स संवाददाता पोसालिया। रोवाड़ा के ग्रामीणों ने शनिवार को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा से मुलाकात कर रोवाड़ा के सार्दुलसिंह मंदिर में चोरी की वारदात के दौरान शक के आधार पर निर्दोष युवकों के साथ मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सार्दुलसिंह मंदिर में 30 दिसम्बर की रात्रि को दान पात्र चोरी की घटना कारित हुई थी। शक के आधार पर रोवाड़ा पुलिस ने छानलाल मीणा पुत्र राजाराम मीणा, भलाराम

हीरागर, भरत कुमार पुत्र भंवरलाल, विशाल कुमार पुत्र भंवरलाल, भरत कुमार पुत्र हरिराम मीणा, श्रवण पुत्र भुवताराम मीणा को घर से उठाकर ले गए तथा रातभर चौकी में बंद किया तथा मारपीट कर चोरी कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया। जबकी सभी ने चोरी नहीं करने की बात ही। जिस पर लोढ़ा ने पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल से दूरभाष पर बातचीत कर पूरे मामले से अवगत कराया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का का भरोसा दिलाया।

परिवार नियोजन के संबंध में दिया प्रशिक्षण

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। सारणेश्वर मार्ग स्थित स्वास्थ्य भवन में शनिवार को सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार की अध्यक्षता में परिवार नियोजन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम 'एफपीएलएमआईएस' परिवार कल्याण के साधनों की भौतिक उपस्थिति और अनुपस्थिति की जानकारी देता है। इसकी विस्तृत से जानकारी साझा की। मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि जिले के प्रति ब्लॉक स्तर से, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी एवं युपीएचसी पर कार्यरत परिवार कल्याण स्टाफ इंचार्ज जो परिवार कल्याण के भारत सरकार पोर्टल एफपीएलएमआईएस का कार्य कर रहे उसे प्रशिक्षण दिया गया। सीएमएचओ ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, मां वाउचर योजना तथा लाडो प्रोत्साहन योजना की विस्तृत से जानकारी दी। चिकित्सा संस्थानों पर सरकार के नियमानुसार निशुल्क दवाई उपलब्ध हो साथ ही संस्थान पर तीन माह का स्टॉक भी अपने संस्थान पर रखने के



निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए एंटीलावां एक्टिविटी करने के साथ ही बुखार आ रहे लोगों के ब्लड स्लाइड लेवे व पिन के पानी स्रोतों के सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिये। डिप्टी सीएमएचओ डॉ चन्दनसिंह एवं आईपास संस्थान के जिला समन्वयक धीरज

राजपुरोहित ने स्वास्थ्य कर्मचारियों परिवार कल्याण के भारत सरकार पोर्टल एफपीएलएमआईएस के बारे में विस्तृत से पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। बीसीएमओ एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक नरेश कुमार, डीएनओ ओमप्रकाश वर्मा, जिला आईईसी समन्वयक दिलावर खां आदि मौजूद थे।

गोसेवक दलपत मंडवारिया ने जलशक्ति मंत्री पाटील से की मुलाकात



जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। गोसेवक दलपत राजपुरोहित मंडवारिया ने गुजरात के अकलेखर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान मंडवारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के नेतृत्व में चल रहे कर्मभूमि से जन्मभूमि-जलसंचय जनभागीदारी अभियान के लिए मारवाड़ के लोगों की ओर से आभार व्यक्त किया। मंडवारिया ने कहा कि ये अभियान हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए समर्पित है। मंडवारिया ने सिरोही जिले में जलस्तर बढ़ाने को लेकर जल शक्ति मंत्री से विशेष चर्चा की। वहीं जिले के पेयजल व्यवस्था को सुधार करने के लिए जिले में लंबित पड़ी पेयजल परियोजना को शीघ्र शुरू करवा कर क्षेत्र वासियों को लाभ दिलाने की मांग की। सूखत के भाजपा नेता दिनेश पुरोहित नून, अर्जुनसिंह तिवरी, प्रकाश सेवड़ा, श्रवण पुरोहित, भरत मोटालाल पुरोहित आदि मौजूद थे।

क्षतिग्रस्त सड़क से आवागमन बाधित, ग्रामीण परेशान

जागरूक टाइम्स संवाददाता पोसालिया। रोवाड़ा से सिरोही-जालोर की दो किलोमीटर सड़क करीब सात वर्ष से क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही से जालोर जिले में प्रवेश करने के लिए यह महत्वपूर्ण रोड है। शॉर्ट होने के चलते इस मार्ग का उपयोग वाहन चालक ज्यादा करते हैं। यह सड़क पोसालिया, पिण्डवाड़ ब्यावर फरेलने से जुड़ होने से जोयला, जोगापुर, आल्पा से रोवाड़ा से आलावा, डेडियाली से तखतगढ़, उमेदपुर, हरजी कानीवाड़ा से जालोर 60 किमी दूरी है। इस सड़क से ग्रामीणों एवं वाहन चालकों का आना जाना रहता है। वाहन चालकों ने बताया कि सुमेरपुर होकर तखतगढ़ होकर जालोर जाने में 20 किमी की दूरी कम हो जाती है। जिससे समय, श्रम और अर्थ की बचत होती है। इस सड़क मार्ग पर धार्मिक आस्था स्थल जुड़े होने से श्रद्धालुओं की भी भारी आवाजाही रहती है। ग्रामीण पिछले लंबे समय से रोड सही करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। रोवाड़ा सरपंच परवतसिंह परमार ने बताया कि रोवाड़ा व आलावा गांव के बीच दो किलोमीटर सड़क अति क्षतिग्रस्त है। आहोर विधायक को कई बार अवगत कराया है। लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। यहां तक कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। बावजूद सड़क ठीक नहीं हो रही है।

दूध उत्पादकों को बांटा करीब तीन लाख रुपए का लाभांश

जागरूक टाइम्स संवाददाता रानीवाड़ा। रानीवाड़ा सरस डेयरी कि वगतापुरा समिति में क्षेत्र के 168 दुध उत्पादकों को करीब तीन लाख रुपए का लाभांश समिति अध्यक्ष नानसोम की अध्यक्षता में वितरित किया गया। इस दौरान सरस डेयरी पीएंडआइ प्रभारी जवानसिंह बालावत ने मौजूद दुध उत्पादकों को विभागीय योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दौरान प्रबंधक संयंत्र दुंगाराम जीनगर, प्रबंधक गुण नियंत्रण प्रकाश श्रीवास्तव, सचिव मोटाराम चौधरी, उमरावसिंह जोधा, जयतीलाल, रघुवीरसिंह सोलंकी, राहुल गर्ग सहित कई दुध उत्पादक, किसान एवं गणमान्य लोग मौजूद थे।

माली समाज प्रतिभाओं का आज होगा सम्मान

जागरूक टाइम्स संवाददाता भीनमाल। क्षेमंकारी माता मंदिर तलहटी स्थित माली समाज भवन में रविवार को संत लिखमीदास सेवा संस्थान के तत्वावधान में माली समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहेंगे।

जरूरतमंद पांच सौ लोगों को वितरित किए कंबल

जागरूक टाइम्स संवाददाता भीनमाल। बाबा रामदेव मंदिर वाडाभाड़वी में दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से जरूरतमंद पांच सौ लोगों को कंबल वितरित किए गए। दानदाता दिवंगत खिंवाराम लाखानी की स्मृति में उनके पौत्र शिक्षक नेता जयकरण खिलेरी पुत्र रामकिशन खिलेरी परिवार द्वारा बाबा रामदेव मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, विरार नाडी व कालू नाडी आदि स्थानों पर कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर वाडाभाड़वी के सरपंच किशनाराम जाट, वाडाभाड़वी सोसाइटी अध्यक्ष भभूतसिंह, चितलवाला थाना प्रभारी उप निरीक्षक किशनाराम खिलेरी, जिला परिषद सदस्य श्रीमती सजनीदेवी मेघवाल, समिति मेंबर ओखाराम मेघवाल, समिति के पूर्व उपाध्यक्ष लीलाराम भील, जभेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट वाडा भाड़वी के अध्यक्ष भागीरथ जानी, तलकाराम, अध्यापक लादूराम सियाग, रावलाराम खिलेरी, हीराराम जाट, हनुमान पवार वरिष्ठ अध्यापक, किसानाराम डाक, किशनाराम मेघवाल, मोहनलाल खिलेरी, हमीराराम खिलेरी, वागाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे।


सैनजी भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 25 अप्रैल को

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। झलरावास स्थित लगभग दो सौ वर्षों से अधिक अतिप्राचीन सैनजी महाराज, विष्णु भगवान, मां लक्ष्मी, गणेश भगवान, हनुमान, गरुड़ भगवान एवं अंगदनी गवान शिव के अतिप्राचीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मारु सेन समाज के चार पराना सोडा, झोर, बोरा, खाटली के सानिध्व में जीर्णोद्धार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सिरोही, जालोर, पाली समेत अन्य प्रांत में निवासरत समाज के लोग भाग लेंगे। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर 11 जनवरी को गोयली रोड स्थित सेन समाज छत्रावास में बैठक के आयोजन किया जाएगा। जिसमें मारु सेन उपलक्ष्य में शनिवार को हनुमान गौशाला जीतपुरा जसवंतपुरा में पौष्टिक गौ आहार (चुरी) का

गोवंश को वितरित किया पौष्टिक आहार

जागरूक टाइम्स संवाददाता जसवंतपुरा। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह शन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शनिवार को हनुमान गौशाला जीतपुरा जसवंतपुरा में पौष्टिक गौ आहार (चुरी) का

वितरण किया गया। गौशाला संचालक आसुसिंह देवड़ा ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। पहाड़सिंह राव बोरली, महेंद्रसिंह राव, रामसिंह धुरपड़ा, ईश्वर परिहार, जोगसिंह देवड़ा सहित कई लोग मौजूद थे।



अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर सियासत


डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर बोला हमला सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें



बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का डोटासरा पर पलटवार, कहा...

कांग्रेस ने अत्यवहारिक निर्णय लेकर स्कूल खोले

जयपुर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए



कहा कि कांग्रेस सरकार ने अत्यवहारिक निर्णय लेकर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। इंग्लिश स्कूलों की व्यवस्था नहीं की, कैले पढ़ाई होती। कांग्रेस का बच्चों का भविष्य खराब करने का षडयंत्र था। पांचवीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी, छठी क्लास से पढ़ाई करवाई। जब प्रारंभिक नीव मजबूत नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी। सभी का मातृभाषा स्कूलों का ढांचा तैयार करने सहित कई बातों का निर्णय करेंगे। सरकार ने रोजगार की दृष्टि से टाइम्स बाउंड कैलेंडर जारी किया है।

जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन में खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री

एजाम लिया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं

बीजेपी सरकार की ओर से भर्ती परीक्षाओं पर निष्ठा साधते हुए भी डोटासरा ने कहा कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में सरकार ने भर्तियों के लिए एजाम तो कराई, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं कर पाई। बीजेपी के मन में खोटे नजर आ रहा है।

बीजेपी और आरएसएस के लोगों को शामिल करना

डोटासरा ने कहा कि परिणाम जारी करने के बाद अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग परीक्षा परिणाम में पास हो गए हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाए। इस पर सवाल उठते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकार इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को शामिल करना चाह रही है।

प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में चार मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। कमेटी इन स्कूलों को लेकर समीक्षा रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। इंग्लिश मीडियम

स्कूलों को लेकर बनाई गई समिति के विरोध में कांग्रेस उतर गई है। शनिवार को पीसीसी कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलों की समीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 12 महीने बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या 12 महीने तक सरकार सो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रहे हैं। जिनमें इस वर्ष 677371 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है और फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 45300 पद स्वीकृत किए थे और अलग से इंग्लिश मीडियम का केन्द्र बनाया था। हमने 10000 की नई भर्ती भी की थी और परीक्षा और इंटरव्यू लेकर अंग्रेजी स्कूलों में टीचर लगाए थे। लेकिन 12 महीने बीत जाने के बाद भी 17192 पद इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। पिछले 12 महीनों में इन स्कूलों में सरकार ने एक भी भर्ती नहीं की। डोटासरा ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसान और गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें।

जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है और फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 45300 पद स्वीकृत किए थे और अलग से इंग्लिश मीडियम का केन्द्र बनाया था। हमने 10000 की नई भर्ती भी की थी और परीक्षा और इंटरव्यू लेकर अंग्रेजी स्कूलों में टीचर लगाए थे। लेकिन 12 महीने बीत जाने के बाद भी 17192 पद इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। पिछले 12 महीनों में इन स्कूलों में सरकार ने एक भी भर्ती नहीं की। डोटासरा ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसान और गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें।

डोटासरा के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता का पलटवार

कांग्रेस सरकार ने नाथी का बड़ा चलाया : राखी राठौड़

जयपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया तो, पलटवार में भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ उतर आईं।

राखी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि भजन लाल सरकार राज्य के हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काम कर रही है। यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसे सिर्फ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम पर बोर्ड लगाकर सिर्फ नाथी के बाड़े चलाए। पेपर चोरी से शिक्षा



के मंदिर को नाथी का बाड़ा बना दिया था।

राखी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन ने प्रदेश को गर्त में धकेला। सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलकर कांग्रेस ने इन स्कूलों को बंद करने का षडयंत्र किया। राखी ने कहा कि डोटासरा भजन लाल सरकार की ओर से जनता के लिए किए जा रहे कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं और विकास के कामों को रोकना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

कोडीन से बनी 2 करोड़ की कफ सिरप जल

गुवाहाटी। असम पुलिस ने कछार जिले में एक वाहन से दो करोड़ रुपए कीमत की कोडीन से बने कफ सिरप की 11,100 बोतलें जल कीं। कोडीन अफीम और मार्फीन से बनाता है, इसलिए लोग इससे बने कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में बताया था कि 2024 में पुलिस ने 682.44 करोड़ रुपए की और अन्य ड्रग्स जल की थीं।

सीएम सरमा ने कहा, कि 2021 में पुलिस ने 420.17 करोड़ रुपए, 2022 में 784.55 करोड़ रुपए, 2023 में 742.09 करोड़ रुपए और पिछले साल यानी 2024 में 682.44 करोड़ रुपए की 183 किलो हेरोइन जब्त की। पिछले साल पुलिस ने 22,776 किलो, 114 किलो अफीम, 33.07 लाख नशीली गोलियां, 14 किलो मॉर्फिन और 2.30 लाख कफ सिरप की बोतलें जब्त की थीं।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ बने अजीमूल हक

नई दिल्ली। आईएस अधिकारी अजीमूल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। हक वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के मैनेजर (एडमिनिस्ट्रेशन) के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने का मामला

यूपी में छात्रों से 17 लाख की ठगी, 14 जनों पर आरोप

लखनऊ। भदोही पुलिस ने प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में भदोही पुलिस की अपराध शाखा के दो कांस्टेबल समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला अदालत के आदेश पर जिले के सुरयावां थाना में शुक्रवार (4 दिसंबर) को दर्ज किया गया है। इन

कांस्टेबल ने पैसे देने वाले छात्र नीरज यादव और उसके पिता रमाकांत यादव को धोखे से पुलिस लाइन बुलाकर हवालात में बंद कर दिया और बाप-बेटे पर पुलिस से की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट की। इस मामले में कुलभूषण उर्फ कुलदीप मिश्रा, राजन त्रिपाठी, कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल अंकित त्रिपाठी और दस अज्ञात व्यक्तियों समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।



17 लाख लेकर दिए फर्जी प्रवेश पत्र

सुरयावां थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार गुप्ता ने बताया कि 2021 में बनारस में कोचिंग के दौरान नीरज की मुलाकात प्रयागराज के कुलभूषण उर्फ कुलदीप मिश्रा और जौनपुर के राजन त्रिपाठी से हुई थी। इसके बाद में उसकी मुलाकात जौनपुर के रहने वाले और फिलहाल भदोही पुलिस की अपराध शाखा में तैनात सिपाही नरेन्द्र सिंह से हुई। इन लोगों ने नीरज को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए लिए और फर्जी प्रवेश पत्र दिया।

झारखंड सरकार का मईयां सम्मान योजना

एक साथ मिलेगी 2500 की दो किस्तें

56 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़। साल 2023 में झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मईयां सम्मान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर लाभार्थी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाते थे। चुनाव के बाद इस योजना में सरकार ने पैसों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस योजना में 2500 रुपए दिए जाएंगे। जल्द ही योजना की अगली किस्त जारी की जा सकती है। इस बार लाभार्थियों को 5000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड की लाखों महिलाओं को सरकार की मईयां सम्मान योजना का लाभ मिलता है। चुनाव के चलते महिलाओं को दिसंबर के महीने की किस्त नहीं मिली



लाख महिलाओं को इस किस्त का लाभ मिलेगा।

जागरूक टाइम्स समूह संपादक पुरोहित ने त्यक्त की संवेदना



जागरूक टाइम्स संपादक पुरोहित ने त्यक्त की संवेदना प्रकट की। इस दौरान जालौर भाजपा पूर्व महामंत्री भारताराम देवासी भीनमाल, मुकेश पुरोहित जीरावल, पूर्व भाजपा महामंत्री दुर्गाराम गरासिया, नरेन्द्रसिंह राव बसंतगढ़, लक्ष्मणसिंह देवड़ा विरोली, डॉ दिनेश पुरोहित आदि उपस्थित थे।

कोली प्रजापति के घर पहुंचे। दिवंगत दारमोदेवी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति व परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। परिवारजनों को सांत्वना के साथ

कोली प्रजापति के घर पहुंचे। दिवंगत दारमोदेवी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति व परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। परिवारजनों को सांत्वना के साथ

अतुल सुभाष सुसाइड मामला

पत्नी, सास और साले को मिली जमानत

बेंगलुरु। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को शनिवार को बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी। तीनों को प्रयागराज और गुरुग्राम से गिरफ्तार से किया गया था। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर जान दे दी थी। इसके बाद अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे।



छत्तीसगढ़ सीएम की कड़ी कार्रवाई

मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, तीन गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर कड़ा संदेश दिया है।



विष्णुदेव साय ने पीडित परिवार को

आश्वासन दिया है कि मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या में शामिल किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह जघन्य घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। मैं मुकेश चंद्राकर के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा हूँ।

सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद

बीजापुर शहर में एक स्थानीय ठेकेदार के परिसर में बने सेप्टिक टैंक में शुक्रवार को 33 वर्षीय मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया था। मुकेश एक जनवरी की रात से लापता थे।

यूट्यूबर थे मुकेश चंद्राकर

मुकेश चंद्राकर कई समाचार चैनलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करते थे और एक यूट्यूब चैनल 'बस्तर जंक्शन' भी चलाते थे जिस पर लगभग 1.59 लाख सब्सक्राइबर हैं। मुकेश ने अप्रैल 2021 में बीजापुर के टैकलगुडा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश सिंह मन्हास को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

इथोपिया में 5.5 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली। यूरोपियन मिडटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक इथोपिया में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किमी की गहराई में था।

इससे पहले दिन में इथियोपिया के केंद्रीय माउंट डोफन में ज्वालामुखी विस्फोट की सूचना दी थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में लगातार छोटे-छोटे झटके महसूस किए गए।

फैज अहमद किदवई महानिदेशक नियुक्त

नई दिल्ली। फैज अहमद किदवई सिविल एविएशन डायरेक्ट्रेट के महानिदेशक नियुक्त किए गए। वे 1996 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएसएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे।

उनकी नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के आदेश पर हुई। वहीं, मध्य प्रदेश कैडर के ही 1998 बैच के आईएसएस आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से मुक्त कर ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

एक नजर



हिसार में ट्रक के नीचे दबने से दो की मौत

हिसार। हिसार जिले में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक हादसे से दो लोगों की मौत हो गई। हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाइवे पर दो कारों के बीच टक्कर हो गई। दोनों कारों की टक्कर के बाद पीछे से आ रहा एक ट्रक भी अनियंत्रित हो गया और इन दोनों कारों के ऊपर पलट गया। ट्रक पलटने की वजह से दोनों कारों में सवार लोग उसके नीचे दब गए। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भेजा है। उकलाना पुलिस ने अभी फिलहाल दो लोगों के ही मरने की पुष्टि की है।

गोलगप्पे विक्रेता को जीएसटी नोटिस

एक साल की कमाई लाखों में

जीएसटी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल

चेन्नई। तमिलनाडु के एक पानीपुरी विक्रेता की सैलरी ने सबको हैरान कर दिया। खासकर इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब पानीपुरी विक्रेता को



वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नोटिस भेजा गया है। 17 दिसंबर, 2024 को जारी एक समन का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे तमिलनाडु माल एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। इसमें गोलगप्पे बेचने वाले को निजी रूप से उपस्थित होने और डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में दिखाए गए समन में पानी पूरी बेचने वाले को कहा गया है, 'रेजरपे और फोनपे से मिली रिपोर्टों के आधार पर, आपको गुड्स या सर्विसेज की बाहरी सप्लाय के लिए यूपीआई पेमेंट हासिल हुए हैं और साल 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए मिले पेमेंट नीचे दिए गए हैं। इसमें 2023-24 में आपको 40 लाख रुपए मिले हुए दिखाए गए हैं। वहीं इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मसालेदार कचौड़ी बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर पर सालाना 60 लाख रुपए कमाने और कर चोरी करने के आरोप में जीएसटी विभाग ने छाप मारा था। वरिष्ठ कर अधिकारियों ने सड़क किनारे लगे स्टॉलों पर जीएसटी पंजीकरण के बिना नकद लेनदेन करके बड़े पैमाने पर कर चोरी करने का आरोप लगाया है।

वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी, 5 लोग घायल

वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दो पक्षों की लड़ाई के दौरान हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। यह घटना हैरी थॉमस व एनई 1500 ब्लॉक में हुई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि पांचों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है।